



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1604]
No. 1604]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2007/पौष 7, 1929
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2007/PAUSA 7, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2007

का.आ. 2199(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 18(अ), तारीख 9 जनवरी, 2007, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के दतिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के 52.00 कि.मी. से 84.80 कि.मी. (ग्वालियर-झांसी सेक्शन) तक के भूखण्ड का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 17 फरवरी, 2007 को "दैनिक भास्कर" और "दैनिक आचरण" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के कि.मी. 52.00 से कि.मी. 84.80 तक (ग्वालियर झांसी सेक्शन) के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का विवरण।

क्र.सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (है. में/वर्ग मी. में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दतिया	दतिया	(1) चिरुला	1305	निजी	असिंचित	0.120	मुरारीलाल तनय नारान दास हिस्सा रकबा 0.43 भालेन्द्र बा. महेन्द्र नाबा. तनय रामशरण, सुखदेवी, सरोज बा. रानी, मोहनी नाबा. पुत्रिया रामशरण सर. भाई भालेन्द्र रकबा 0.32 निवासी ग्राम भूस्वामी
				1400	निजी	असिंचित	0.006	कन्हई पुत्र छबरा जाति मल्ला निवासी ग्राम भूस्वामी
				1335	निजी	असिंचित	0.002	अमरसिंह तनय सरमन जाति यादव निवासी ग्राम भूस्वामी
				1336	निजी	असिंचित	0.002	सत्यवती पत्नी घनश्यामदास व चन्दादेवी पत्नी मुरारीलाल गोस्वामी निवासी दतिया भूस्वामी
				1337	निजी	असिंचित	0.002	गोविन्ददास, दयाराम, शिवचरन पुत्रगण भागीरथ जाति प्रजापति नि.ग्राम भूस्वामी
				1338	निजी	असिंचित	0.002	नरेश तनय भैयालाल जाति कोरी निवासी ग्राम भूस्वामी
				1339	निजी	असिंचित	0.002	सुन्दरलाल तनय मट्टू जाति कोरी निवासी ग्राम भूस्वामी
				1340	निजी	असिंचित	0.002	मधुसूदन तनय अवधशरण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				1341	निजी	असिंचित	0.002	धनीराम पुत्र घिमन जाति अहिरवार निवासी ग्राम भूस्वामी
				1343	निजी	असिंचित	0.002	महेन्द्र प्रताप शर्मा तनय केवलराम शर्मा मुरली मनोहर तनय महेन्द्र प्रताप शर्मा निवासी ग्राम भूस्वामी
				1344	निजी	असिंचित	0.002	राजीव सत्यम त. पन्नालाल अनुराधा मनीषा, मीनाक्षी पुत्रिया पन्नालाल माधुरी पत्नी पन्नालाल जाति कायस्थ निवासी ग्राम भूस्वामी
				1345	निजी	असिंचित	0.002	जगदीश तनय सरमन जाति यादव निवासी ग्राम भूस्वामी
				1342	निजी	असिंचित	0.002	देवेन्द्र कुमार तनय भगवानदास रामरती वेवा वेवा भगवानदास जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				1296	निजी	असिंचित	0.022	भगवानदास, प्रभुदयाल तनय नंदलाल, रमला रामकुंवर पुत्री नंदलाल 1/3 तुलसी,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								रघुवीर, चतुरसिंह तनय रामनाथ देवा देवा रामनाथ 1/3 चप्पा हल्के बृजकिशोर पुत्रगण गनू 1/3 जाति मल्ला निवासी ग्राम भूस्वामी
				1293 1294	निजी बिजी	असिंचित असिंचित	0.040 0.030	मुरारीलाल तनय नारानदास गोस्वामी भाग 1/3 निवासी दतिया शकुन्तला पत्नी महेश कुमार निवासी परसोदया ततारपुर हि. 1/3 महेशचन्द्र तं. बटोली प्रसाद, आदेश कुमार त. सुरेशचन्द्र भाग 1/3 जति गुप्ता निवासी दतिया भूस्वामी
				1402	निजी	असिंचित	0.016	ख्याली तनय मन्नू जाति केवट निवासी ग्राम भूस्वामी
				1621	निजी	असिंचित	0.010	कथूले तनय हरनाम जाति अहिरवार भाग 1/2 मानिक चंद तनय भजनलाल राय, वेनी तनय खंजुआ, मुरारीलाल तनय नारानदास गोस्वामी, भानू प्रताप आनन्द कुमार नाबा. पिता शिवचरण गीता नाबा. पुत्री शिवचरण सर. मों रामकली व रामकली वेबा शिवचरण सुरेशकुमार त. कल्लू लुहार ग्यासी त. खन्जुआ अन्दर हि. 1/2 मे निवासी ग्राम भूस्वामी
		(2) कालापहाड		68/3	निजी	सिंचित	0.110	हेमन्त कुमार, राकेश कुमार त. बीघाराम जाति सिन्धी निवासी मुडियन का कुआं दतिया भूस्वामी
				74	निजी	सिंचित	0.200	रीता पत्नी राकेश कुमार नीतू पत्नी विष्णू कुमार कल्पना पत्नी सतीशचन्द्र जाति अग्रवाल भागसम निवासी दतिया भूस्वामी
				75 152/1	निजी निजी	सिंचित सिंचित	0.030 0.090	श्रीमति रचना पत्नी राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी छोटा बाजार आसोमाई की गली दतिया भूस्वामी
				152/2 153	निजी निजी	सिंचित सिंचित	0.080 0.050	कन्हई पुत्र धबरे जाति मल्ला निवासी ग्राम डेरा चिरुला भूस्वामी
				154	निजी	सिंचित	0.030	कन्हई पुत्र धबरे जाति मल्ला निवासी डेरा चिरुला रकवा 0.33 आरे श्री श्री 108 त्यागी राम कुमार दास चैला गुरु त्यागी नरसिंहदास जी महाराज रकवा 0.32 आरे निवासी ग्राम भूस्वामी
				187 186	निजी निजी	सिंचित सिंचित	0.030 0.030	धनीराम पुत्र रामभरोसे, शिवकुमारी पत्नी धनीराम रामेश्वर प्रसाद, अजीत कुमार पुत्र धनीराम भागसमान जाति महाजन निवासी ग्राम भूस्वामी
				164 179 181 184	निजी निजी निजी निजी	सिंचित असिंचित सिंचित असिंचित	0.070 0.060 0.090 0.040	राकेश, मदन, जशरथ, खेमराज पुत्र ग्यासीराम, अजय, घनश्याम नाबा. पुत्र ग्यासीराम सर. मों, कस्तूरी रजंकू लली पुत्रियां नाबा. पुत्रियां ग्यासीराम सर. मों कस्तूरी वेवा ग्यासीराम भाग सनान जाति महाजन निवासी डेरा चिरुला भूस्वामी
				158	निजी	असिंचित	0.080	संजीव कुमार पुत्र गुलाब चन्द्र भाग 0.04 भाग 1/14 जाति अग्रवाल निवासी दतिया गिरजाप्रसाद उभाचरण पुत्र मंजुवा रकवा 0.13 राजेश तनय कन्हैयालाल जाति वैश्य रकवा 0.06 नि. गांधी रोड दतिया मुरारीलाल पुत्र नारानदास भाग 1/2 जाति ब्राह्मण निवासी दतिया भूस्वामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				180	निजी	सिंचित	0.010	संजीव कुमार पुत्र गुलाब चन्द्र रकवा 0.15 जाति अग्रवाल निवासी भटयारा मो. दतिया अशोक कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद रकवा 0.16 जाति अग्रवाल निवासी गोविन्दगंज दतिया पुष्पादेवी पत्नी कमलेश तिवारी रकवा 0.32 जाति ब्राह्मण निवासी दतिया, भूजवल, मनसुख पुत्र नन्दकिशोर रकवा 0.26 जाति राय निवासी सिमरधा झांसी (उ०प्र०) अजय कुमार पुत्र लखनलाल रकवा 0.26 जाति ब्राह्मण निवासी नन्दनपुरा खाती बाबा के पास झांसी गिरजा प्रसाद, उमाचरण पुत्र मंजुवा भाग रकवा 0.60 भागसमान जाति केवट निवासी डेरा गंधारी राजेश त. कन्हैयालाल जाति वैश्य रकवा 0.20 निवासी गांधी रोड दतिया राजकुमारी पत्नी किशोरी जाति केवट निवासी डेरा गंधारी रकवा 0.10 कमला पुत्री कालीचरण रकवा 0.06 जाति केवट नि. डेरा गंधारी भूस्वामी
			(3)गंधारी	424	निजी	असिंचित	0.080	राकेश, सत्यपाल पुत्रगण धर्मचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी झांसी उ०प्र० भूस्वामी
				425	निजी	असिंचित	0.190	खुशाली पुत्र हल्कू जाति अहिरवार निवासी ग्राम लमायचा भूस्वामी
				487	निजी	असिंचित	0.024	बलवानसिंह, भगवानसिंह पुत्र दयाराम मु. ठकुरान दुलैया वेवा दयाराम में समान भाग जाति यादव निवासी ग्राम भूस्वामी
				488	निजी	असिंचित	0.044	राजेन्द्रमोहन पुत्र किशनचन्द्र निवासी ग्वालियर भूस्वामी
				489	निजी	असिंचित	0.044	अजीतसिंह पुत्र अमरीक सिंह जाति पंजाबी
				491	निजी	असिंचित	0.024	निवासी झांसी उ०प्र० भूस्वामी
				878	निजी	असिंचित	0.050	फूलसिंह पुत्र बैजनाथ रकवा 0.29 छोटेला
				886	निजी	असिंचित	0.090	पुत्र बैजनाथ रकवा 0.18 जाति मल्हा निवासी ग्राम, अवतारसिंह पुत्र अमरीकसिंह जाति पंजाबी रकवा 0.36 निवासी झांसी उ०प्र० श्रीमती ममता पत्नी संदीप सक्सेना रकवा 0.22 निवासी सिविल लाईन झांसी उ०प्र० सत्यप्रकाश पुत्र सूरज प्रकाश रकवा 0.73 जाति वैश्य निवासी झांसी उ०प्र० भूस्वामी
				723	निजी	असिंचित	0.110	प्रकाश, गोकल पुत्रगण खेमचन्द्र मुलायम पुत्र आशाराम किशना, कला पुत्रिया आशाराम भाग 1/2 सुकलाल मनोहर बलवान जगदीश प्रेमनारायन हरीसिंह पुत्रगण रामसेवक मीरा रानी जनका पुत्रियां रामसेवक मु. गेंदरानी बेबा रामसेवक व कोशल बा. अमित नाबा. पुत्रगण बालकिशुन प्रभा रूबी नाबा. पुत्रियां बालकिशुन सरं. मौं स्वयं मु. सुकरतन बेबा बालकिशुन भाग 1/6 रामवती पुत्री निरपत भाग 1/6 रामदयाल सन्तु लाखन पुत्रगण कल्लू कम्मा द्रोपती पुत्रियां कल्लु मु. सेवरानी बेबा कल्लु भाग 1/6 जाति मल्हा निवासी ग्राम भूस्वामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				724	निजी	सिंचित	0.060	अशोक कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद अग्रवाल निवासी दतिया भाग 1/8 मुरारीलाल पुत्र नारायणदास गोस्वामी भाग 1/8 जाति ब्रह्मण्य निवासी धमतालपुरा दतिया मुलायम पुत्र आशाराम 1/4 किशना, कला पुत्रियां आशाराम 1/2 जाति मल्ला नि. ग्राम भूस्वामी
				784	निजी	सिंचित	0.040	श्रीलाल पुत्र जगन्नाथ मनोज हरकिशोर बा. हरदास नाबा. पुत्रगण होरीलाल सर. माँ. कलावती पुत्री होरीलाल मु. लल्ला बेटा वेवा होरीलाल पुत्रगण जगन्नाथ समानभाग जाति मल्हार निवासी ग्राम डेरा गंधारी
			(4) डगरई	376	निजी	सिंचित	0.150	श्यामा बाई पुत्री डबू पत्नी चुन्नी गड़रिया निवासी ग्राम भूस्वामी
				228	निजी	सिंचित	0.410	सुरेन्द्र कुमार पुत्र विशुन्नाथ ब्राह्मण निवासी दतिया भूस्वामी
				177	निजी	असिंचित	0.044	रवीन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति सिन्धी
				178	निजी	असिंचित	0.080	निवासी दतिया भूस्वामी
				179	निजी	असिंचित	0.120	विनोद कुमार पुत्र भगवानदास जाति ब्रह्मण्य निवासी दतिया भूस्वामी
				181	निजी	असिंचित	0.120	शेलेन्द्र कुमार पुत्र राधाचरण कायस्थ निवासी दतिया भूस्वामी
				189	निजी	असिंचित	0.080	श्रीमति मालती देवी पत्नी महेशचन्द्र व रोहित कुमार पुत्र लक्ष्मीचन्द्र जाति अग्रवाल निवासी ग्वालियर भूस्वामी
				204/1	निजी	असिंचित	0.240	सुभाष चन्द्र पुत्र प्रकाश चन्द्र श्रीमति स्मितादेवी पत्नी अनिल कुमार अग्रवाल रकवा 0.08 है. रामकिशोर पुत्र रामतेज लिटौरिया रकवा 0.04 है. राजेन्द्र प्रसाद तनय भगवती नारायण शर्मा नरेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र परलानी सुरेश कुमार तनय श्रीराम सोनी, ओमप्रकाश तनय बटनलाल गुप्ता रकवा 0.23 है. निवासी दतिया भूस्वामी
				204/2	निजी	असिंचित	0.060	रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट अध्यक्ष श्री रविशंकरजी महाराज रावतपुरा सरकार भूस्वामी
				218/1	निजी	असिंचित	0.030	अरुणकुमार पुत्र श्यामसुन्दर जाति
				219	निजी	असिंचित	0.040	चौरसिया निवासी दतिया भूस्वामी
				218/2	निजी	असिंचित	0.020	अब्दुल सलीम खॉन पुत्र अब्दुल हमीद खॉन निवासी पुलिस लाईन दतिया भूस्वामी
				मिन				
				221/1	निजी	असिंचित	0.080	राधेलाल पिता जुगलकिशोर भाग 1/20 श्रीमती राममूर्ति पत्नी रूपकिशोर निवासी दतिया हिस्सा 1/20 कल्यानसिंह पुत्र बहोरन भाग 2/30 दिलीप कुमार पुत्र बाबूलाल गुप्ता निवासी दतिया भाग 7/30 शिवनारायण पुत्र दीनदयाल भाग 1/2 जाति ब्रह्मण्य निवासी स्टेशन रोड दतिया भूस्वामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				221/2	निजी	असिंचित	0.070	राकेश कुमार पुत्र श्यामसुन्दर चौरसिया निवासी दतिया भूस्वामी
				16	निजी	असिंचित	0.050	श्रीमति वैनी बाई पत्नी बालाप्रसाद तिवारी हिस्सा 37/39 श्रीमति दीप्ती पत्नी विनोद कुमार दुबे हि 2/39 निवासी दतिया भूस्वामी
				209	निजी	असिंचित	0.012	रामसखी पुत्री दुर्गाप्रसाद उमाशंकर पुत्र दुर्गाप्रसाद भागसम 1/2 दुर्गा प्रसाद पुत्र बहोरन हिस्सा 1/2 जाति पाल निवासी ग्राम भूस्वामी
				215	निजी	असिंचित	0.040	रामचन्द्र पुत्र चैनामल जाति सिन्धी हिस्सा 1/2 मोहन पुत्र राधेश्याम गंधी हिस्सा 1/2 निवासी दतिया भूस्वामी
				181/392	निजी	असिंचित	0.140	कृष्ण प्रकाश आनन्द प्रकाश पुत्रगण प्रागीलाल भागसमान जाति कायस्थ भूस्वामी
			(5)चितुवा	671	निजी	सिंचित	0.010	नन्दपाल, जुगेन्द्र पुत्रगण धरमचन्द्र निवासी झांसी उ०प्र० भूस्वामी
				675	निजी	सिंचित	0.090	
				656	निजी	सिंचित	0.040	
				657	निजी	सिंचित	0.040	
				659	निजी	सिंचित	0.040	
				680	निजी	सिंचित	0.320	बृजलाल, सीताराम पुत्रगण तुलई हरकुवर पुत्री तुलई समान भाग रकवा 0.23 हरचरण पुत्र चुक्खे रकवा 0.05 गंगाराम देवकीनन्दन पुत्र तुलई रकवा 0.02 जाति अहिरवार निवासी ग्राम लरायटा लक्ष्मीकान्त पुत्र ओमप्रकाश जाति वैश्य निवासी दतिया रकवा 0.13 श्रीमती गीता पत्नी श्री सुरेशचन्द्र शुक्ल जाति ब्राह्मण निवासी दतिया रकवा 0.16 व वीरेन्द्र कुमार पुष्पेन्द्र कुमार पुत्रगण गोविन्ददास रकवा 0.12 अन्दर भाग 1/2 जाति ब्राह्मण निवासी दतिया रामनगर भूस्वामी
				681	निजी	सिंचित	0.090	रामजानकी तनय बृजलाल जाति अहिरवार निवासी ग्राम लरायटा भूस्वामी
				679	निजी	सिंचित	0.300	बृजलाल गंगाराम सीताराम पुत्रगण तुलई हरकुवर पुत्री तुलई समान भाग 4/12 बृजलाल देवकीनन्दन गंगाराम सीताराम पुत्रगण तुलई हरकुवर पुत्री तुलई भाग 1/12 हरचरण पुत्र चुक्खे भाग 7/12 जाति अहिरवार निवासी ग्राम लरायटा भूस्वामी
			(6)रामनगर	377	निजी	सिंचित	0.010	राजीव लोचन तनय शंकरप्रसाद भाग 1/2 सुशीला देवी देवा कैलाश नारायण व शंकरप्रसाद त. उमाचरण भाग 1/2 निवासी ग्राम भूस्वामी
				376 मिन 6	निजी	असिंचित	0.004	विश्वनाथ सिंह पर्वत देवसिंह नाबा. तनय स्वामीप्रसाद सर. मौ. पुष्पादेवी निवासी ग्राम भूस्वामी
				376 मिन 1 375/1 मिन 1 मेसे	निजी	असिंचित	0.004	प्रभाकर तनय जीवाराम पाण्डे निवासी दतिया रकवा 0.016 ठाकुर दास जगदीश दिनेश परसराम पुत्र दयाराम भाग 0.013 विश्वनाथ कालीचरण रमेश पुत्रगण भैयालाल रकवा 0.020 मुंशी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>खो पुत्र नरथू खो रकवा 0.023 नूर मोहम्मद त. शेख विशारद हाई स्कूल के पीछे रकवा 0.023 मनोजकुमार तनय प्रभाकर श्रृषम सारम नाबा. त. व सर. मनोजकुमार पकौडया महादेव रकवा 0.014 नसीम बेगम पत्नी अब्बास अली रकवा 0.017 रियाज मुहम्मद तनय मुहम्मद रकवा 0.015 निवासी सायनी मोहल्ला अब्दुलशकूर तनय अब्दुलगफूर दांतरे की नरिया रकवा 0.020 मकसूद पुत्र बाबू खो रकवा 0.030 निवासी सायनी मो. इरशाद पुत्र अब्दुल्ले खो रकवा 0.017 नि. उ०प्र० मु. परवीन बानो पत्नी यूनिश अहमद खो नि. आनन्द टाकिज के पास रकवा 0.018 हनीफ पुत्र मेहबूब खो रकवा 0.008 निवासी ग्राम भूस्वामी</p>
				376 मिन 4	निजी	असिंचित	0.007	आशा पत्नी कोमलसिंह निवासी ग्राम भूस्वामी
				376 मिन 3	निजी	असिंचित	0.008	रस्मी पुत्री सुनीलकुमार चौरसिया निवासी ग्राम भूस्वामी
				375/1 मिन 2 376 मिन 1	निजी	असिंचित	0.010	सगुन पत्नी शंकरलाल साहू निवासी ग्राम भूस्वामी
				375/1 मिन 3	निजी	असिंचित	0.004	कृष्णा पत्नी लक्ष्मीनारायण निवासी ग्राम भूस्वामी
				375/2/1 मे से	निजी	असिंचित	0.105	<p>मन्नू पुत्र चतुरा रकवा 0.272 लक्ष्मीनारायण पुत्र धन्नू रकवा 0.018 कु. निधि पुत्री ओमप्रकाश खरे रकवा 0.276 लक्ष्मन पुत्र चतुरा रकवा 0.526 राजेन्द्र पुत्र हरनारायण रकवा 0.002 गन्नू पुत्र चतुरा रकवा 0.186 बृजलाल पुत्र रामचन्द्र रकवा 0.013 जीतेन्द्र पुष्पेन्द्र सतेन्द्र व राघवेन्द्र पुत्र रमेशचन्द्र व ऊषा देवा रमेशचन्द्र रकवा 0.007 बद्रीप्रसाद पुत्र मलखान रकवा 0.011 मनोजकुमार पुत्र सालिगराम रकवा 0.018 श्रीमती तारादेवी पत्नी जगदीशराय रकवा 0.019 प्रीति पत्नी पंकज जैन रकवा 0.009 सतेन्द्र नाबा. पुत्र व सर. रमेशचन्द्र बृजमोहन नाबा. पुत्र रमेशचन्द्र सर. ताऊ विशुनाथ रकवा 0.002 नि. ग्राम भूस्वामी बृजपाल पुत्र रामचरण अरजरिया रकवा 0.006 निवासी ग्राम भूस्वामी</p>
				375/2/1 मे से	निजी	असिंचित	0.005	<p>राजेन्द्र कुमार तनय हरनारायण खटीक निवासी कौंच 0.005 सत्येन्द्र नाबा. पुत्र व सर. रमेशचन्द्र बृजमोहन नाबा. रमेशचन्द्र साहू सर. ताऊ विशुनाथ पुत्र भैयालाल रकवा 0.006 निवासी ग्राम भूस्वामी</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				271 मिन 2	निजी	असिंचित	0.011	उदैतसिंह पुत्र हीरा सिंह रकवा 0.149 मिथला देवी पत्नी मंगलसिंह रकवा 0.013 निवासी ग्राम भूस्वामी
				263/2 मे से 262/2 मे से	निजी	असिंचित	0.001	ओमप्रकाश पुत्र मंगू बाल्मीक निवासी चुनगर फाटक दतिया भूस्वामी
				262 मिन 1 263 मिन 1	निजी	असिंचित	0.003	श्रीमती शोभा भारती पत्नी राजेन्द्र भारती श्रीमती सुमन भारती पत्नी राकेश भारती श्रीमती सरिता पत्नी अरुण भारती रकवा 0.180 सीताराम तनय मतई रकवा 0.030 रामसेवक तनय अयोध्या प्रसाद रकवा 0.004 अनिलकुमार तनय केदारनाथ गुप्ता तह. पिछोर रकवा 0.007 वनासो पत्नी सीताराम रकवा 0.009 सुनीता पत्नी अमरसिंह मोगिया रकवा 0.009 भगवानदास तनय गुविन्दी निवासी दतिया रकवा 0.016 भूस्वामी
				531/2 मे से	निजी	असिंचित	0.028	श्यामबाबू तनय पन्ना मोगिया निवासी ग्राम भूस्वामी रकवा 0.111 रामबाबू नाबा. तनय व सर. हरीराम जाति यादव निवासी 0.017 लमायचा रकवा 0.006 गंगाराम पुत्र चर्तुभुज रकवा 0.017 गोरीशंकर धमेन्द्र महेन्द्र पुत्रगण किशोरी लाल वर्मा निवासी तलैया मोहल्ला रकवा 0.014 निवासी ग्राम भूस्वामी
				531/2 मे से	निजी	असिंचित	0.009	रमेश चन्द्र सुरेश चन्द्र तनय आशाराम कुम्हार निवासी ग्राम भूस्वामी
				531/2 मे से	निजी	असिंचित	0.023	बहादुर पुत्र पन्ना भाग 0.185 हरकुवर पत्नी केशवदास कोलो नि. पुलिस लाइन रकवा 0.009 सुनील पुत्र परमानन्द यादव रकवा 0.011 श्रीमति किशोरी देवी पत्नी रतीराम रामसिंह बा. सन्तोष मुकेश नाबा. रतीराम संर. माँ किशोरी रकवा 0.017 निवासी फुलरा सुरेन्द्र कुमार तनय प्रेमनारायण अहिरवार रकवा 0.017 नि. मोठ उ0प्र0 भूस्वामी
				531/1 मे से	निजी	असिंचित	0.027	रामप्रकाश पुत्र राजाराम देवकीनन्दन पुत्र सुन्दरलाल निवासी दुरसड़ा भूस्वामी
				531/1 मे से	निजी	असिंचित	0.010	रविकुमार पुत्र रामकुमार गोस्वामी निवासी राजघाट रकवा 0.121 चुन्ना खों पुत्र खैराती खों रकवा 0.016 निवासी ग्राम ओमप्रकाश पुत्र सटोले सेन 0.011 भूस्वामी
				531/1 मे से	निजी	असिंचित	0.010	अशोक कुमार पुत्र एल.आर.टोक रेलवे स्टेशन दतिया भूस्वामी
				526	निजी	असिंचित	0.118	रामस्वरूप पुत्र किशुनलाल निवासी ग्राम भूस्वामी
				520/655	निजी	असिंचित	0.178	भगवानदास तनय पन्ना 0.025 जोहरसिंह पुत्र चन्दनसिंह 0.007 निर्भयसिंह पुत्र सुगरसिंह रकवा 0.567 निवासी ग्राम भूस्वामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				520/1	निजी	असिंचित	0.078	उमराव तनय ग्यासी रकवा 0.028 सुरेशकुमार पुत्र कीमताराम रकवा 0.162 निवासी ग्राम भूस्वामी
				519	निजी	असिंचित	0.052	उमराव तनय ग्यासी 0.026 मूलाबाई पत्नी उमराव 0.135 बाबूलाल पुत्र प्रेमनारायण अभिषेक पुत्र रमेश चन्द्र सतीश पुत्र रामजीलाल श्रीवास्तव श्रीमती रेखा पत्नी महेन्द्र लिटोरिया भागसम रकवा 0.082 नि. दतिया भूस्वामी
				500	निजी	असिंचित	0.022	उमराव तनय ग्यासी 0.795 करतारसिंह सिंह पुत्र मोती मोंगिया रकवा 0.005 मानसिंह पुत्र कल्याणसिंह मोंगिया रकवा 0.005 सूरजसिंह पुत्र चन्दनसिंह मोंगिया रकवा 0.005 विजयसिंह पुत्र वृन्दासिंह रकवा 0.008 निवासी ग्राम भूस्वामी
				499 मिन 1	निजी	असिंचित	0.060	करनसिंह गुलाबसिंह मोहनसिंह नवलसिंह हिम्मतसिंह अमरसिंह महेन्द्रसिंह खजनीसिंह पुत्रगण प्रतापसिंह तुलसा बाई देवा प्रतापसिंह निवासी ग्राम भूस्वामी
				497	निजी	असिंचित	0.012	मु. मुनिया देवा गनपत 1/2 राकेश नाबा. पुत्र पतुआ सरं. मों जमुना देवी भाग 1/2 निवासी ग्राम भूस्वामी
				490 491/1	निजी निजी	असिंचित असिंचित	0.254 0.090	किशोरी गिल्लो बिहारी पुत्रगण पतुआ भाग 3/5 कामता पुत्र गोपाल भाग 1/5 मूलचन्द्र रामस्वरूप पुत्रगण रामप्रसाद भुनेया बंदा रामप्रसाद सुम्मा लाङ्कुर रति पुत्रियां रामप्रसाद समभाग 6/35 जितेन्द्र पुत्र मानसिंह प्रीति नाबा. पुत्री मानसिंह सरं. भाई जितेन्द्र भागसम 1/35 निवासी ग्राम भूस्वामी
				419 मे से	निजी	असिंचित	0.161	ऊषा देवी पत्नी वीधाराम रकवा 0.147 मोती देवी पत्नी प्रकाशचन्द्र रकवा 0.018 अर्चना पत्नी दिनेश राय रकवा 0.013 हीरालाल पुत्र राधाचरण सोनी निवासी हाउसिंग बोर्ड दतिया रकवा 0.022 रविकुमार तनय रामसिया जगतोरिया रकवा 0.011 निवासी ग्राम भूस्वामी
				419 मे से	निजी	असिंचित	0.039	हेमन्त कुमार पुत्र वीधाराम निवासी ग्राम भूस्वामी
				419 मे से	निजी	असिंचित	0.007	यशवंतसिंह पुत्र अमरसिंह श्रीमती गिरजा पत्नी यशवंतसिंह निवासी ग्राम भूस्वामी
				388/2 380/2 371 380/3 372/2 380 मिन 4	निजी निजी निजी निजी निजी निजी	सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित	0.020 0.020 0.015	प्रशांत कुमार पुत्र प्यारेलाल वशिष्ठ निवासी ग्राम भूस्वामी
				372/1 380 मिन 4 380/5	निजी निजी निजी	सिंचित सिंचित सिंचित	0.015 0.050	प्रशन्न कुमार पुत्र प्यारेलाल वशिष्ठ निवासी ग्राम भूस्वामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				232/672/2	निजी	असिंचित	0.040	बहादुर पुत्र पन्ना मोगिया निवासी ग्राम भूस्वामी
				487/1	निजी	असिंचित	0.060	हेमन्त कुमार पुत्र वीधाराम सिन्धी निवासी ग्राम भूस्वामी
		(7) दतिया		3131	निजी	असिंचित	0.200	रामदयाल, ग्यासी, सून्नु, मुन्ना तनय दोलतसिंह जाति काछी, निवासी ग्राम भूस्वामी
				3093	निजी	असिंचित	0.104	हरिराम पुत्र उमराव गंगा पुत्री उमराव जाति काछी
				3094	निजी	असिंचित	0.090	हि. 0.008 राजेन्द्रप्रसाद कविजु पुत्र किशारीशरण कौम ब्राह्मण हि. 0.635 रामदयाल, ग्यासी, सून्नु, मुन्ना तनय दोलतसिंह हि. 1/2 जाति काछी निवासी ग्राम भूस्वामी
				3104	निजी	असिंचित	0.092	मु. गायत्री वेवा द्वारका प्रसाद सध्या गीता पुत्रिया द्वारकाप्रसाद हिस्सा 3/16 देवऋषि नाबा. पुत्र मनोजकुमार सर. माँ मु. पुष्पा वेवा मनोज कुमार हिस्सा 1/16 जगदीश प्रसाद पुत्र लक्ष्मी नारायण मु. माखन वेवा लक्ष्मीनारायण शारदा पुत्री लक्ष्मीनारायण भागसम 3/4 निवासी ग्राम भूस्वामी
				3105	निजी	असिंचित	0.006	श्रीमति कमलादेवी पत्नी कन्हैयालाल
				3109/3	निजी	असिंचित	0.272	निवासी ग्रामी भूस्वामी
				3109/2	निजी	असिंचित	0.008	कमलादेवी पत्नी कन्हैयालाल हिस्सा 0.024 सरजू पुत्र रमु हिस्सा 0.025 निवासी ग्राम भूस्वामी
				3120/2/1	निजी	असिंचित	0.182	कृष्ण गोपाल पुत्र ओम प्रकाश
				3120/2/2	निजी	असिंचित		श्रीवास्तव निवासी ग्राम भूस्वामी
				3119/1	निजी	असिंचित	0.033	रामेन्द्रसिंह पुत्र मथुरासिंह कौम ठाकुर निवासी बैसपुरा भूस्वामी
				3119/2	निजी	असिंचित	0.032	देवसिंह मुन्ना नन्दु हीरालाल पुत्रगण फेली निवासी ग्राम भूस्वामी
				3116/2/2	निजी	असिंचित	0.110	नैना नाबा. पुत्री जयदीप सिंह बुन्देला निवासी ग्राम भूस्वामी
				3180/2	निजी	सिंचित	0.200	रामप्रकाश पुत्र रामकिशुन निवासी ग्राम भूस्वामी
				1294/1	निजी	सिंचित	0.128	दुर्गाप्रसाद पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम भूस्वामी
				3182 मिन 2	निजी	सिंचित	0.084	मुकेश कुमार पुत्र नवल किशोर 1/2 मनीषकुमार
				3182 मिन 1	निजी	सिंचित		पुत्र मुकेशकुमार वंशल सुजीतकुमार पुत्र फूलचन्द्र
				3184	निजी	सिंचित	0.116	नि. ग्राम प्रफुल्ल कुमार पुत्र मुकेश कुमार धर्मेन्द्र
				3185	निजी	सिंचित		कुमार पुत्र मुकेश निवासी ग्राम भूस्वामी
				1823/1	निजी	असिंचित	0.040	मूलचन्द्र बाबूलाल हरदास पुत्रगण खुशालीराम हरको रम्पा गोमा पुत्रियां खुशालीराम भागसम 6/8 उत्तमसिंह कैलाश चन्द्र पुत्रगण माखनलाल भागसम 1/8 हाकिमसिंह ओमप्रकाश पुत्रगण हरगोविंद मुरैना बाली बेबा हरगोविन्द भाग 1/8 जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी
				1889/1	निजी	असिंचित	0.016	शानू नाबा. पुत्री हरीशचन्द्र मिश्रा सर. माँ सन्तोषी पत्नी हरीशचन्द्र निवासी ग्राम भूस्वामी
				1889/2	निजी	असिंचित	0.016	राधा नाबा. पुत्री हरीशचन्द्र मिश्रा सर. माँ सन्तोषी पत्नी हरीशचन्द्र मिश्रा नि. ग्राम भूस्वामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1889/3	निजी	असिंचित	0.016	श्रीमति सन्तोषी पत्नी हरीशचन्द्र मिश्रा निवासी ग्राम भूस्वामी
				1889/4	निजी	असिंचित	0.016	संजयकुमार पुत्र श्यामबिहारी मिश्रा निवासी ग्राम भूस्वामी
				1889/5	निजी	असिंचित	0.016	राघवेन्द्र पुत्र रामबाबू मिश्रा निवासी ग्राम भूस्वामी
				2739/1	निजी	सिंचित	0.160	केशवप्रसाद पुत्र वनमाली कौम ब्रह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				2190/1	निजी	असिंचित	0.358	मंदिर श्री बक्शी जू हनुमानजी महाराज प्रबंधक कलेक्टर महोदय दतिया
				2221/1/1 क	निजी	असिंचित	0.070	रामचन्द्र पुत्र चैनामल राकेश कुमार पुत्र बक्शामल सिन्धी निवासी ग्राम भूस्वामी
				2221/1/2 मिन 1	निजी	असिंचित	0.200	जानकी राधेश्याम पुत्रगण बचई मु. भूरी वेवा बचई कौम काछी निवासी ग्राम भूस्वामी
				2221/1/2 अ मिन 9	निजी	असिंचित	0.024	श्यामलाल गोलानी पुत्र अर्जुनदास गोलानी निवासी ग्राम भूस्वामी
				2221/1/2 अ मिन 10	निजी	असिंचित	0.020	अब्दुल कदीर पुत्र शमशेर खॉन कौम मुसलमान निवासी ग्राम भूस्वामी
				2221/2/4	निजी	असिंचित	0.022	कृष्णपालसिंह पुत्र जगदीशसिंह निवासी ग्राम भूस्वामी
				2221/2/2	निजी	असिंचित	0.022	डा.मदनस्वरूप पुत्र श्यामलाल पंसारी निवासी ग्राम भूस्वामी
				2221/2/9 मिन 1	निजी	असिंचित	0.010	श्रीमति संगीता पत्नी रवीन्द्र कुमार सुन्दरानी निवासी ग्राम भूस्वामी
				2221/2/6 मिन 1	निजी	असिंचित	0.060	मु. शमीम वेवा ताजउद्दीन मोहम्मद रियाज पुत्र मोहम्मद हाशिम हि. 1/2 असलम, अस्पाक पुत्रगण अब्दुल जलील किदवाई हि. 1/2 निवासी ग्राम भूस्वामी
				2221/2/6 मिन 2	निजी	असिंचित	0.025	मनोहरलाल पुत्र गागनमल पुष्पा देवी पत्नी मनोहरलाल कौम सिन्धी निवासी ग्राम भूस्वामी
				2221/2/10 मिन 1	निजी	असिंचित	0.012	बल्लू पुत्र भजनलाल साहू निवासी ग्राम भूस्वामी
				2221/2/12	निजी	असिंचित	0.020	श्रीराम रावत पुत्र रामगोपाल रावत निवासी ग्राम भूस्वामी
				2221/2/11	निजी	असिंचित	0.020	सन्तोष कुमार पुत्र मूलचन्द्र निवासी ग्राम भूस्वामी
				2221/2/10 मिन 1	निजी	असिंचित	0.019	श्रीमती राजकुमारी पत्नी हेमन्त ज्ञानानी निवासी ग्राम भूस्वामी
				2221/2/9 मिन 2	निजी	असिंचित	0.040	लक्ष्मण पुत्र राजाराम साहेबानी निवासी ग्राम भूस्वामी
				2221/2/13 मिन 1 क	निजी	असिंचित	0.030	राकेश पुत्र कन्हैयालाल निवासी ग्राम भूस्वामी
				2221/2/5	निजी	असिंचित	0.060	रवीन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल निवासी ग्राम भूस्वामी
				2219/2/1 ख-2	निजी	असिंचित	0.020	हेमन्त पुत्र सीरचन्द्र ज्ञानानी सिन्धी निवासी ग्राम भूस्वामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2219/2/1 ग-1	निजी	असिंचित	0.020	जैरामदास पुत्र गेडीमल निवासी ग्राम भूस्वामी
				2219/2/1 क मिन ख	निजी	असिंचित	0.020	श्रीमती रामदुलारी पत्नी श्री निवास गुप्ता निवासी ग्राम भूस्वामी
				2219/2/1 क मिन 1 छ	निजी	असिंचित	0.030	श्रीमती शीला पत्नी महेशचन्द्र निवासी ग्राम मैथलीशरण पुत्र हरदयाल चौबे निवासी बहरुका हरीनारायण पुत्र वृन्दावन सैन निवासी ग्राम भूस्वामी
				2219/2/1 क मिन 1 क	निजी	असिंचित	0.150	मंगलसिंह, रामबाबू पुत्रगण शीतलप्रसाद सावित्री, शीला, रामकुमारी, राजकुमारी पुत्रिया शीतलप्रसाद मु. सावित्री वेवा शीतलप्रसाद नि. ग्राम भूस्वामी
				2219/3/1 क -1	निजी	असिंचित	0.017	ओमप्रकाश टिलवानी पुत्र विधराम टिलवानी निवासी ग्राम भूस्वामी
				2219/3/1 क -3	निजी	असिंचित	0.019	अशोक कुमार पुत्र किशनचन्द्र निवासी ग्राम भूस्वामी
				2219/3/1 क -2	निजी	असिंचित	0.019	नानक राम पुत्र किशनचन्द्र निवासी ग्राम भूस्वामी
				2219/3/1 क -4	निजी	असिंचित	0.025	
				2219/3/1 क -9	निजी	असिंचित	0.018	सुरेश कुमार पुत्र किशनचन्द्र बलवानी निवासी ग्राम भूस्वामी
				3124/1	निजी	असिंचित	0.012	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र शिरोमण सिंह बुन्देला निवासी ग्राम भूस्वामी
				3124/2	निजी	असिंचित	0.012	सरजू पुत्र रम्पू जाति काछी निवासी ग्राम भूस्वामी
				1816	निजी	असिंचित	0.128	मंदिर गोविन्द जी बड़े ऐहतमाम गोविन्द लाल पुत्र वनमारीलाल कोम ब्राह्मण प्रबंधक जिलाधीश दलिया
				2191/1	निजी	असिंचित	0.210	मंदिर श्री वक्शी जू हनुमानजी महाराज प्रबंधक कलेक्टर महोदय दलिया
				2230/2 मिन - 2	निजी	असिंचित	0.008	ऊषा देवी पत्नी जयकरन सिंह कोम दांगी रकवा 0.018 वीर बहादुर सिंह पुत्र रामस्वरूप दांगी श्रीमती आशा पत्नी विजय भास्कर रकवा भाग 0.006 निवासी ग्राम भूस्वामी
				2230/2 मिन - 3	निजी	असिंचित	0.010	स्वामी शरण पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम भूस्वामी
				2187/17/1 1 मिन 1 क	निजी	असिंचित	0.280	मनोज कुमार पुत्र श्री निवास कोम ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				2187/13	निजी	असिंचित	0.160	एम.के. एसोसिएट प्रोपराईटर गुरुमुख दास तुलसानी पुत्र मंगतराम तुलसानी हिस्सा 0.739 डा. संतोष कुमार संतपाल पुत्र चन्दू संतपाल व गोविन्द प्रसाद कामरा भाग 0.070 निवासी ग्राम भूस्वामी
				2187/16/1	निजी	असिंचित	0.280	खलक पुत्र गोकल काछी निवासी ग्राम भूस्वामी
				2187/2/1	निजी	असिंचित	0.320	गैबू पुत्र विन्दे 1/2 सेवक, मटोले, मोहनलाल परशराम, राजू पुत्रगण किशोरी हि. 1/2 जाति काछी निवासी ग्राम भूस्वामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2187/3/1 मिन 2	निजी	असिंचित	0.020	दिनेश कुमार पुत्र सन्तूमल कोम सिन्धी निवासी ग्राम भूस्वामी
				2187/3/1 मिन 4	निजी	असिंचित	0.020	श्रीमती हूमा देवी पत्नी दीपचन्द निवासी ग्राम भूस्वामी
				2187/3/1 मिन 1	निजी	असिंचित	0.110	राजकुमार पुत्र जीवतराम रकवा 0.020 आरे हरीराम पुत्र जीवतराम रकवा 0.020 आरे हरीश कुमार पुत्र जुम्मन तलरेजा हिस्सा 0.020 आरे प्रेमकू पुत्र भागचन्द्र हिस्सा 0.020 आरे अमर गृह निर्माण सहकारी समिती अध्यक्ष प्रभुदयाल पुत्र भेरूमल सिन्धी रकवा 0.030 निवासी ग्राम भूस्वामी
				2763/1 मिन 1	निजी	असिंचित	0.160	महेश कुमार, कृष्णकुमार पुत्र उमाचरण कोम ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
		(8)गोविन्दपुर	741	निजी	सिंचित	0.130	बैजनाथ तनय धनुवा जाति काछी निवासी	
			742	निजी	सिंचित	0.190	ग्राम भूस्वामी	
			783	निजी	सिंचित	0.060	चतुरा पुत्र दुरग जाति काछी निवासी दतिया	
			784	निजी	सिंचित	0.090	भूस्वामी	
			802	निजी	सिंचित	0.050	राजेन्द्रसिंह पुत्र शिरोमण सिंह बुन्देला	
			803	निजी	सिंचित	0.090	निवासी दतिया भूस्वामी	
			892/2	निजी	सिंचित	0.050	जानकी मानसिंह हरीसिंह पुत्रगण कल्लु जाति काछी निवासी दतिया भूस्वामी	
			893/2	निजी	सिंचित	0.040	जानकी पुत्र कल्लु जाति काछी निवासी दतिया भूस्वामी	
			893/3	निजी	सिंचित	0.040	मानसिंह पुत्र कल्लु जाति काछी निवासी दतिया भूस्वामी	
			895	निजी	सिंचित	0.100	काशीराम लक्ष्मण सीताराम पुत्रगण दमरू	
			927	निजी	सिंचित	0.170	समभाग जाति काछी निवासी दतिया भूस्वामी	
			928	निजी	सिंचित	0.100	विशुन पुत्र करंजू जाति काछी निवासी	
			928	निजी	असिंचित	0.040	दतिया भूस्वामी	
			931	निजी	सिंचित	0.140		
			933	निजी	सिंचित	0.060	सुभाष चन्द्र तनय प्रकाश चन्द्र वैश्य निवासी दतिया भूस्वामी	
			947	निजी	सिंचित	0.140	किशोरी वेवा लालाराम पिस्ता पुत्री लालाराम कन्हैया पुत्र लालाराम 1/2 सीताराम पुत्र भागीरथ जाति काछी हिस्सा 1/2 निवासी ग्राम भूस्वामी	
			948	निजी	सिंचित	0.150	अमरजू लाल रामरतन हरगोविन्द पुत्रगण	
			949	निजी	सिंचित	0.070	बच्चीलाल समभाग काछी निवासी दतिया	
			949	निजी	असिंचित	0.040	भूस्वामी	
			989	निजी	असिंचित	0.090	अनीता वेवा परसराम भूपेन्द्र पुत्र परसराम सावित्री रामदेवी, मुन्नी, प्रेम पुत्रियां भवानीशंकर मूर्ति वेवा भवानी शंकर हिस्सा रकवा 0.82 चेलाराम बलवानी पुत्र रामचन्द्र बलवानी जाति सिन्धी रकवा 0.16 गजेन्द्रसिंह पुत्र मथुरा सिंह कुशवाह निवासी पीडब्लूडी कालोनी ठंडी सड़क दतिया रकवा 0.64 भूस्वामी	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				990	निजी	सिंचित	0.040	मिथला पुत्री गज्जू जाति काछी निवासी दतिया भूस्वामी
				992	निजी	असिंचित	0.010	खुमानो पत्नी बाबूलाल जाति काछी निवासी दतिया भूस्वामी
				1058/1	निजी	असिंचित	0.260	कुमारी निधि पुत्री ए.के. गुप्ता जाति वैश्य निवासी धमतालपुरा दतिया हिस्सा 1/3 मनोहरलाल तनय गागनदास जाति सिन्धी गाडीखाना दतिया हिस्सा 1/3 घनश्याम तनय परशराम जाति सिन्धी पकोरिया महादेव हरदुआ वाली गली दतिया हिस्सा 1/3 निवासी ग्राम भूस्वामी
				1058/3	निजी	असिंचित	0.190	अर्चना पत्नी राजकुमार वैश्य निवासी बड़ौनीखुर्द ग्राम भूस्वामी
				1064	निजी	असिंचित	0.200	रामस्वरूप पुत्र सोहनलाल हिस्सा 1/2 कन्नुलाल पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/2 वैश्य निवासी दतिया भूस्वामी
				1065	निजी	असिंचित	0.080	अजय कुमार पुत्र बुद्धप्रकाश वैश्य निवासी दतिया भूस्वामी
				1066	निजी	असिंचित	0.050	फूलचन्द्र बट्टीप्रसाद पुत्र रतनलाल समभाग जाति वैश्य निवासी दतिया भूस्वामी
				1067	निजी	असिंचित	0.242	फूलचन्द्र पुत्र रतनलाल वैश्य निवासी दतिया हिस्सा रकवा 0.51 प्रशांत पुत्र चैलाराम बलवानी जाति सिन्धी निवासी दतिया हिस्सा 0.04 श्रीकृष्ण तनय राधेश्याम वैश्य हिस्सा रकवा 0.46 प्रतापराय पुत्र भेरुमल सिन्धी हिस्सा रकवा 0.08 निवासी दतिया भूस्वामी
				1077	निजी	असिंचित	0.120	राजेन्द्र कुमार उर्फ राजीव कुमार पुत्र
				1075	निजी	असिंचित	0.030	राधेश्याम हिस्सा 1/5 किरण वेवा रामभरोसे आकाश पुत्र रामभरोसे वैश्य हिस्सा 1/5 मनीराम पुत्र सीताराम हिस्सा 1/5 फूलचन्द्र प्रकाशचन्द्र पुत्रगण रतनलाल भाग 2/5 वैश्य निवासी दतिया भूस्वामी
				893/1	निजी	असिंचित	0.020	जानकी मानसिंह हरीसिंह पुत्र कल्लू जाति काछी निवासी दतिया भूस्वामी
				1068	निजी	असिंचित	0.020	फूलचन्द्र बट्टीप्रसाद पुत्र रतनलाल समभाग जाति वैश्य निवासी दतिया भूस्वामी
				1066/1082	निजी	असिंचित	0.040	प्रभुदयाल तनय बाबूलाल सुरेशकुमार तनय आशाराम केशवकुमार तनय चेताराम अहिरवार निवासी ग्राम भूस्वामी
			(9)विजयपुर	2	निजी	सिंचित	0.020	इन्द्रपालसिंह सुरेन्द्रपालसिंह पुत्रगण जाहरसिंह यादव निवासी झांसी उ0प्र0 सम भूस्वामी
				46	निजी	सिंचित	0.030	जमुना संतोष पुत्रगण लालाराम हिस्सा 2/3
				47	निजी	सिंचित	0.020	काछी राकेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति
				48	निजी	सिंचित	0.030	सिन्धी 1/3 निवासी दतिया भूस्वामी
				52	निजी	सिंचित	0.060	नारायण पुत्र गोविन्ददास भाग 1/6 जगदीश
				53	निजी	सिंचित	0.060	ओमप्रकाश कालका प्रसाद अतरसिंह पुत्रगण
				54	निजी	सिंचित	0.060	बल्लु सगुन गुडडी फूलवती पुत्रियां बल्लू 1/6 समभाग रघुनन्दन किशोरी पुत्रगण ग्याप्रसाद भाग 1/3 सम द्वारका मानसिंह रामेश्वर पुत्रगण लक्ष्मीप्रसाद सखी पुत्री लक्ष्मीप्रसाद भाग 1/3 सम जाति घोषी निवासी रिछारी भूस्वामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				79	निजी	सिंचित	0.040	रतीराम पुत्र धन्नु रकवा 0.44 जाति बागला
				80	निजी	सिंचित	0.040	शुभम नाबा. पुत्र व सर. रामप्रकाश पुत्र बल्लू रकवा 0.40 द्वारका प्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण रकवा 0.43 जाति यादव निवासी रिछारी भूस्वामी
				81	निजी	सिंचित	0.080	झगडू पुत्र गुन्दे जाति गड़रिया निवासी रिछारी भूस्वामी
				82	निजी	सिंचित	0.110	विजयराम पातीराम अमरसिंह पुत्रगण केवलिया कपूरी पुत्री केवलिया कंचन देवा केवलिया सम जाति गड़रिया निवासी रिछारी भूस्वामी
				83	निजी	सिंचित	0.060	शंभूदयाल प्रभुदयाल पुत्र किशोरी जाति यादव निवासी रिछारी भूस्वामी
				84	निजी	सिंचित	0.090	गोपल पुत्र रघुवर भाग 1/2 राजेश कुमार पुत्र रामप्रकाश 1/2 जाति यादव नि. रिछारी भूस्वामी
				85	निजी	सिंचित	0.200	राकेश मदन बा. बाबू नाबा. पुत्रगण सुरेशचन्द्र
				88	निजी	सिंचित	0.150	सर. मों विमला देवी पत्नी सुरेशचन्द्र नाई सम निवासी दतिया भूस्वामी
				128/1	निजी	सिंचित	0.020	अतरसिंह पुत्र लक्ष्मणदास जाति काछी निवासी ग्राम भूस्वामी
				128/2	निजी	सिंचित	0.010	सुमन पत्नी अशोक गोतम निवासी ग्राम भूस्वामी
				128/3	निजी	सिंचित	0.020	रामकुमारी पत्नी बृजकिशोर दुबे निवासी शोरसा भूस्वामी
				128/4	निजी	सिंचित	0.070	कृष्णा पत्नी गणेश राम तिवारी निवासी दांतरे की नरिया दतिया भूस्वामी
				129	निजी	असिंचित	0.030	किशोरी पुत्र रामप्रसाद भाग 1/2 अतरसिंह वृन्दावन पुत्र लक्ष्मणदास भाग 1/2 सम जाति काछी निवासी ग्राम भूस्वामी
				130/1	निजी	सिंचित	0.010	अतरसिंह पुत्र लक्ष्मणदास जाति काछी निवासी ग्राम भूस्वामी
				130/2	निजी	सिंचित	0.150	किशोरी पुत्र रामप्रसाद काछी निवासी ग्राम
				200	निजी	सिंचित	0.020	भूस्वामी
				132	निजी	सिंचित	0.120	गोविन्दसिंह महेश जीवन नाबा. पुत्र किशोरी सर. मों रामवती 1/3 हरप्रसाद सीताराम पुत्रगण मन्नु भाग 2/3 जाति काछी निवासी ग्राम भूस्वामी
				207/1	निजी	सिंचित	0.010	भगवानदास रामलाल तनय गुलिया काछी निवासी ग्राम भूस्वामी
				207/3	निजी	सिंचित	0.030	मेहरबान पुत्र पर्वत काछी निवासी ग्राम भूस्वामी
				209	निजी	सिंचित	0.090	सरजू पुत्र छोटेलाल भाग 1/4 बलुवा पर्वत
				210	निजी	सिंचित	0.070	पुत्रगण नन्ना 1/4 बिहारीलाल पुत्र प्रेमनारायण तेजा पुत्री प्रेमनारायण ललिता देवा प्रेमनारायण भाग 3/64 कैलाश काशीराम रामसिंह पुत्रगण विन्दे भाग 1/8 गोविन्ददास नाबा. पुत्र प्रेमनारायण सर. मों भाग 5/64 करनसिंह खुमान लालाराम पुत्रगण सरजू भाग 1/4 सम जाति काछी निवासी मुरेरा भूस्वामी
				131	निजी	सिंचित	0.150	धनसिंह पुत्र सबदल जाति काछी निवासी
				204	निजी	सिंचित	0.030	ग्राम भूस्वामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				214	निजी	सिंचित	0.100	चेतना मोहनानी पत्नी रामचन्द्र मोहनानी सिन्धी निवासी दतिया भूस्वामी
				217	निजी	सिंचित	0.140	राकेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल सुन्दरानी
				218	निजी	सिंचित	0.010	निवासी गुरुनानक कालोनी दतिया भूस्वामी
				220	निजी	सिंचित	0.040	कामता पुत्र छुट्टू जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी
				199/1	निजी	सिंचित	0.020	वृन्दावन तनय लक्ष्मण दास काछी निवासी ग्राम भूस्वामी
				199/3	निजी	सिंचित	0.020	अतरसिंह पुत्र लक्ष्मणदास काछी निवासी ग्राम भूस्वामी
			(10)रिछारी	2	निजी	असिंचित	0.120	विनोद कुमार पुत्र रामस्वरूप वैश्य निवासी
				4	निजी	असिंचित	0.070	दतिया भूस्वामी
				3	निजी	सिंचित	0.030	प्रीतम बादाम पुत्र गुन्ने पाना कस्तूरी पुत्रियां
				155	निजी	सिंचित	0.080	गुन्ने घोषी निवासी ग्राम भूस्वामी
				51	निजी	असिंचित	0.092	लालसिंह पुत्र चन्नी जाति घोषी निवासी
				52	निजी	असिंचित	0.070	ग्राम भूस्वामी
				50	निजी	सिंचित	0.140	राजाराम पुत्र विजयसिंह भाग 1/4 मंगलसिंह
				54	निजी	सिंचित	0.100	किशोरी पुत्र धुन्नी भाग 1/2 सम देवसिंह
				55	निजी	सिंचित	0.130	प्यारेलाल पुत्रगण रामसिंह
								बतीराम बाई पुत्री रामसिंह भाग 1/4 सम घोषी निवासी ग्राम भूस्वामी
				65	निजी	सिंचित	0.060	रघुनन्दन किशोरी पुत्र ग्याप्रसाद जाति घोषी निवासी ग्राम भूस्वामी
				82	निजी	सिंचित	0.080	द्वारका मानसिंह रामेश्वर पुत्र लक्ष्मी प्रसाद सखी पुत्री लक्ष्मीप्रसाद मु. मथुरा वेवा लक्ष्मीप्रसाद जाति घोषी निवासी ग्राम भूस्वामी
				83	निजी	सिंचित	0.110	नारान पुत्र गोविन्ददास 1/3 जगदीश ओमप्रकाश कालका अतरसिंह पुत्र बलु सगुन फूलवती गुडडी मीरा पुत्रिया बलु भाग 2/3 सम घोषी निवासी ग्राम भूस्वामी
				86	निजी	सिंचित	0.050	जहानसिंह सिरनामसिंह रामेशकर पुत्रगण जमुनाप्रसाद रामाबाई कुसुम पुत्री जमुनाप्रसाद जाति घोषी सम निवासी ग्राम भूस्वामी
				156	निजी	सिंचित	0.140	परमानन्द पुत्र अर्जुन भाग 1/4 मु. आनारो वेवा सीताराम जहानसिंह रामसेवक बा. संतोष अमरसिंह नाबा. पुत्र सीताराम सर. भाई जहानसिंह 5/12 सम भवानी बा. बसंती नाबा. पुत्र सीताराम 1/12 आशा बा. गीता नाबा. पुत्रियां हुकुमसिंह नाबा. पिता खुद 1/4 जाति घोषी सम निवासी ग्राम भूस्वामी
				153	निजी	सिंचित	0.040	बादामसिंह पुत्र गुन्ने भाग 1/2 जहानसिंह
				154	निजी	सिंचित	0.030	नाबा. पुत्र व सर. सीताराम भाग 1/2 जाति घोषी निवासी ग्राम भूस्वामी
			(11)घुटारी	4	निजी	सिंचित	0.010	किशनलाल रतीराम रमेश आद्यराम पुत्र धनू हिस्सा 4/7 सम जसिया वेवा धनू हिस्सा 1/7 ओमदेवी वेवा सुरेश मनीष नाबा. पुत्र सुरेश सर. मों खुद हिस्सा 1/7 सम निहाल पुत्र गुलाब शान्ती वेवा गुलाब हि. 1/7 सम जाति गड़रिया निवासी रिछारी भूस्वामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				7	निजी	सिंचित	0.220	जगतसिंह पुत्र ग्याप्रसाद जाति यादव निवासी
				7	निजी	असिंचित	0.130	रिछारी रकवा 1.10 प्रबंधक प्रमोद साहनी पुत्र
								जगदीश साहनी डब्लपमेन्ट अलटरनेटिक्स
								तारा ग्राम ओरछा रकवा 0.04 भूस्वामी
				8	निजी	असिंचित	0.020	प्रमोद साहनी पुत्र जगदीश चन्द्र साहनी प्रबंधक
								विकास विकल्प 1077 सिविल लाईन झांसी
								उ0प्र0 हिस्सा रकवा 0.35 है. कोकसिंह
								जनवेदसिंह भमरसिंह बा. धर्मसिंह नाबा. पुत्र
								व सर. भगवानसिंह जाति यादव हिस्सा रकवा
								0.02 है. निवासी रिछारी भूस्वामी
				10	निजी	सिंचित	0.120	भगवानसिंह पुत्र रामवरन जाति यादव निवासी
								रिछारी हिस्सा 91/139 केहरसिंह पुत्र जगतसिंह
								हिस्सा 24/139 मु. आशा वेवा सोबरन, राहुल
								भानू नाबा. पुत्र सोबरन सर. मौं खुद हिस्सा
								24/139 सम जाति यादव निवासी रिछारी
								भूस्वामी
				11	निजी	सिंचित	0.120	नत्थो पुत्री जानकी पत्नी माधोसिंह जाति यादव
								निवासी रिछारी भूस्वामी
				12	निजी	सिंचित	0.070	काशीराम पुत्र बोहरेसिंह यादव निवासी
								ग्राम भूस्वामी
				18	निजी	असिंचित	0.120	प्रशांत पुत्र चैलाराम जाति सिन्धी निवासी
								स्टेट बैंक के पीछे दतिया भूस्वामी
			(12)सीतापुर	124	निजी	सिंचित	0.310	लक्ष्मीनारायण मन्नू रामकिशुन
				132	निजी	सिंचित	0.200	हरगोविन्द वनमाली चरनसिंह राकेश
								पुत्रगण देवसिंह हि. 5.18/5.33 रामकली कुंवर
								पुत्री देवसिंह हि. 0.15/5.33 जाति काछी निवासी
								ग्राम उपरौय भूस्वामी
				122	निजी	सिंचित	0.450	रघुवर पुत्र दयाराम 1/2 देवी पुत्र
				123	निजी	सिंचित	0.360	दयाराम 1/2 जाति काछी निवासी ग्राम
								उपरौय भूस्वामी
				225	निजी	सिंचित	0.140	उदयवीर सिंह तनय रामसेवक
				226	निजी	सिंचित	0.040	इन्द्राजसिंह तनय ठाकुरदास जाति कमरिया
								निवासी परासरी भूस्वामी
				134	निजी	असिंचित	0.030	नारान तनय भुज्जू जाति यादव हि. 0.06 निवासी
								ग्राम भूस्वामी कावेरी आनन्द पत्नी महेश आनन्द
								रकवा 0.94 जाति खत्री निवासी डबरा
				135	निजी	सिंचित	0.110	अमरसिंह ईशवरसिंह तनय दयाराम जाति
								यादव भागसमान निवासी ग्राम भूस्वामी
				136	निजी	सिंचित	0.090	अमरसिंह पुत्र दयाराम जाति यादव निवासी
								ग्राम भूस्वामी
				291	निजी	सिंचित	0.010	शिवकुमार तनय राधाचरण जाति वैश्य
								निवासी ग्राम भूस्वामी
				523	निजी	सिंचित	0.030	मुलायमसिंह नाथूराम उदयसिंह
				524	निजी	सिंचित	0.090	पुत्रगण रामदास भागसमान जाति यादव
				527	निजी	सिंचित	0.170	निवासी ग्राम भूस्वामी
				526	निजी	सिंचित	0.120	बुद्धसिंह करनसिंह पुत्रगण घनश्याम
				529	निजी	सिंचित	0.170	मु. राजाबेटी बेबा घनश्याम जाति यादव
				1061	निजी	सिंचित	0.160	निवासी ग्राम भूस्वामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1062	निजी	सिधित	0.100	
				1071	निजी	सिधित	0.230	
				530	निजी	सिधित	0.250	जगदीश शरण पुत्र बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				1060	निजी	सिधित	0.330	रामस्वरूप तनय चिन्तामन ब्राह्मण निवासी
				1069	निजी	सिधित	0.320	ग्राम भूस्वामी
				1050	निजी	सिधित	0.030	नाथूराम तनय रामदीन बागला निवासी ग्राम भूस्वामी
				1051	निजी	सिधित	0.090	भैयालाल पुत्र रामनाथ 1/4 सुधादेवी पत्नी राधेलाल 0.07/0.60 हि. विमला देवी पत्नी रमेशचन्द्र 0.07/0.60 हि. शिवकुमार पुत्र नारायणदास मु. कलावती वेबा नारायणदास 1/4 हि. जाति ब्रा. ओमप्रकाश पुत्र रामदास जाति कायस्थ 0.16/0.60 हि. नि.ग्राम भूस्वामी
				1052	निजी	सिधित	0.680	भैयालाल पुत्र रामनाथ 1/4 सुधादेवी पत्नी राधेलाल 1/4 विमला देवी पत्नी रमेशचन्द्र 1/4 शिवकुमार पुत्र नारायणदास मु. कलावती वेबा नारायणदास 1/4 जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				1040	निजी	सिधित	0.020	ओमप्रकाश तनय रामदास कायस्थ निवासी ग्राम भूस्वामी
				1039	निजी	सिधित	0.100	शिवकुमार पुत्र नारायणदास मु. कलावती वेबा नारायणदास 0.08/0.23 हि. भैयालाल पुत्र रामनाथ 0.08/0.23 हि. जाति ब्राह्मण ओमप्रकाश तनय रामदास जाति कायस्थ 0.07/0.23 हि. निवासी ग्राम भूस्वामी
				1038	निजी	सिधित	0.040	सियाशरण पुत्र रामदास कायस्थ निवासी ग्राम भूस्वामी
				1016	निजी	सिधित	0.140	रामस्वरूप तनय हीरालाल जाति कायस्थ
				1020	निजी	सिधित	0.080	निवासी ग्राम भूस्वामी
				1012	निजी	सिधित	0.020	रामेश्वर पुत्र लच्छू कौसा पत्नी लच्छू
				1018	निजी	सिधित	0.020	छोटेलाल बल्लू पुत्रगण लच्छू कमला गिरजा
				1019	निजी	सिधित	0.020	विमला महादेवी पुत्रीयां लच्छू 8/9 व आशा पुत्री सन्तोष 1/9 जाति राय निवासी ग्राम भूस्वामी
				1006	निजी	असिधित	0.220	गजुवा पुत्र ग्यासी 1/3 नारान नत्था रामसेवक पुत्र मुल्ले कमला जमुना पुत्री मुल्ले व बन्टी अरविन्द नाबा. पुत्र कैलाश मु. पुष्पन बेबा कैलाश सर. मां स्वयं 1/3 हि. अतरसिंह मुन्ना वा. पप्पु नाबा. पुत्र बिरजा सर. मां पनकु वेबा बिरजा मिथला मोहनियां खिल्ला बिट्टन पुत्री बिरजा नारानी वेबा नागपुरी नंदकिशोर छोटेलाल नाबा. पुत्र नागपुरी सर. मां स्वयं फूलवती रजनी पुत्री नागपुरी भागसम हि. 2/3 जाति डीमर निवासी ग्राम भूस्वामी
				980	निजी	सिधित	0.090	दीनदयाल बुद्धप्रकाश मंशाराम पुत्रगण
				981	निजी	सिधित	0.240	नत्थू मु. ठकुरिया बेबा नत्थू भागसमान जाति
				982	निजी	सिधित	0.240	जाटव निवासी ग्राम भूस्वामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				983	निजी	सिंचित	0.270	
				977	निजी	सिंचित	0.010	
				989	निजी	सिंचित	0.010	गुरु प्रतापसिंह हरप्रताप सिंह
				1001	निजी	सिंचित	0.530	संतप्रताप सिंह पुत्रगण हरभजन सिंह
				1002	निजी	सिंचित	0.200	जाति पंजाबी भागसमान निवासी ग्राम भूस्वामी
				1003	निजी	सिंचित	0.030	
				1049	निजी	सिंचित	0.010	सुधा देवी पत्नी राधेलाल विमलादेवी पत्नी रमेशचन्द्र ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				1522	निजी	सिंचित	0.120	श्रीमती शीलवती पत्नी रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				1072	निजी	सिंचित	0.030	सियाशरण कल्यानसिंह पुत्र गोविन्ददास जाति यादव निवासी ग्राम भूस्वामी
				1036	निजी	सिंचित	0.040	मुकटसिंह पुत्र रतनसिंह दांगी निवासी ग्राम भूस्वामी
				1520	निजी	सिंचित	0.060	महेश प्रसाद महेन्द्रसिंह पुत्रगण सुन्दरलाल जाति जाटव निवासी ग्राम भूस्वामी
				958	निजी	सिंचित	0.010	दिनेश कुमार पुत्र प्रभुदयाल व प्रभुदयाल पुत्र
				959	निजी	सिंचित	0.060	हीरालाल जाति ब्राह्मण भागसमान निवासी
				960	निजी	सिंचित	0.330	ग्राम मुरेश भूस्वामी
				967	निजी	सिंचित	0.290	शर्माकालरा 1/4 अंकित कालरा
				968	निजी	सिंचित	0.100	3/4 पिता सुरेश कालरा निवासी दतिया
				972	निजी	सिंचित	0.050	जाति पंजाबी भूस्वामी
				974	निजी	सिंचित	0.240	
				975	निजी	सिंचित	0.200	ऊषा पत्नी महेश कुमार मल्होत्रा निवासी दतिया भूस्वामी
				979	निजी	सिंचित	0.110	सुम्मेरा पुत्र तुलसी 1/3 राजू पुत्र रघुवीर कैलासी सुनीता अनीता मनीसा पुत्री रघुवीर मु. रामकुंवर वेबा रघुवीर 2/3 जाति जाटव निवासी ग्राम भूस्वामी
				1017	निजी	सिंचित	0.020	सुम्मेरा पुत्र तुलसी 1/12 हि. राजू पुत्र रघुवीर कैलासी सुनीता अनीता मनीसा पुत्री रघुवीर मु. रामकुंवर वेबा रघुवीर 1/6 हि. हरचरण पुत्र महाराजसिंह हि. 1/8 भगोनी पुत्र तिजुआ भाग 1/6 मुलुआ पुत्र गैबू भाग 1/6 तेजा पत्नी सुरजन लखन रामजी पुत्र सुरजन कंसार पुत्री सुरजन भाग 1/8 जाटव निवासी ग्राम भूस्वामी
				1041	निजी	सिंचित	0.010	राजाराम पुत्र सुल्तानसिंह 4/9 प्रदीपकुमार पुत्र रामसिंह 4/9 रामसिंह तनय अमानसिंह 1/9 हि. जाति दांगी निवासी ग्राम भूस्वामी
				1015	निजी	सिंचित	0.110	राजाराम तनय सुल्तानसिंह, रामकुमार पुत्र रामसिंह भागसम जाति दांगी निवासी ग्राम भूस्वामी
				220	निजी	सिंचित	0.010	उदयवीर सिंह तनय रामसेवक इन्द्राजसिंह
				221	निजी	सिंचित	0.050	तनय ठाकुरदास जाति कभरिया निवासी परासरी भूस्वामी
				290	निजी	सिंचित	0.040	मजबूतसिंह पुत्र जनक सिंह जाति यादव निवासी ग्राम भूस्वामी
				1531	निजी	सिंचित	0.060	श्रीमती शीलवती पत्नी रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				990	निजी	असिंचित	0.040	गुरुप्रतापसिंह हरप्रतापसिंह सन्तप्रतापसिंह पुत्रगण हरभजनसिंह भागसम जाति पंजाबी निवासी ग्राम भूस्वामी
				949	निजी	सिंचित	0.020	जमील खॉ पुत्र नजब खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम भूस्वामी
				976	निजी	असिंचित	0.020	श्रीमती चन्द्रकुमारी पत्नी देवीसिंह ठाकुर निवासी दतिया भूस्वामी
				1519	निजी	असिंचित	0.030	हरीदास गनेशी पुत्र रामदीन भागसम जाति जाटव निवासी ग्राम भूस्वामी
				986	निजी	सिंचित	0.630	सुमेरा पुत्र तुलसी 1/3 राजू पुत्र रघुवीर कैलासी सुनीता अनीता मनीसा पुत्री रघुवीर मु. रामकुवर वेवा रघुवीर 2/3 जाति जाटव निवासी ग्राम भूस्वामी
				1056	निजी	सिंचित	0.400	भैयालाल पुत्र रामनाथ 1/4 सुधादेवी पत्नी राधेलाल 1/4 विमला देवी पत्नी रामेशचन्द्र 1/4 शिवकुमार पुत्र नारायणदास मु. कलावती वेवा नारायणदास 1/4 जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
		(13)दवरावाग		276/2	निजी	सिंचित	0.010	मनोज कुमार पुत्र जानकी प्रसाद दांगी निवासी ग्राम भूस्वामी
				276/3	निजी	असिंचित	0.090	राममिलन पुत्र घनश्याम जाति दांगी निवासी ग्राम भूस्वामी
		(14)उपरौय		343	निजी	सिंचित	0.180	कालका प्रसाद पुत्र छोटेलाल दुर्जन पिता गोकल
				380	निजी	सिंचित	0.150	भाग 2/4 हरदास पिता डबुआ हि 1/4 सीताराम राकेश भगवत पिता बाबू जाति अहिरवार निवासी ग्राम भूस्वामी भाग 1/8 मु. गनेशी वेवा बच्ची प्रभू मुन्ना जानकी रामसिंह हरीमोहन पुत्रगण बच्ची भाग 1/8 जति अहिरवार नि.ग्राम भूस्वामी
				342	निजी	सिंचित	0.100	श्रीमती पुष्पा पत्नी महेशचन्द्र गंधी जाति वैश्य निवासी डबर भूस्वामी
				422	निजी	असिंचित	0.002	अभय पिता बट्टीप्रसाद चांडक निवासी ग्वालियर भूस्वामी
				345	निजी	सिंचित	0.260	सुनीता पत्नी देवेन्द्र कुमार दीक्षित निवासी
				347	निजी	सिंचित	0.040	ग्वालियर भूस्वामी
				358	निजी	सिंचित	0.060	
				359	निजी	सिंचित	0.180	शोभाराम तनय सरू जाति दांगी निवासी
				379	निजी	सिंचित	0.090	ग्राम भूस्वामी
				385	निजी	असिंचित	0.012	मनोज कुमार कृष्ण मुरारी सतीश पुत्रगण दुर्गाप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				386	निजी	असिंचित	0.040	पवन कुमार पंकज कुमार नाबा. पुत्रगण
				1198	निजी	सिंचित	0.120	बुद्धप्रकाश सर. मौ. मीरा देवा बुद्धप्रकाश भाग 1/3 कल्लू पिता भागीरथ हि0 1/3 पवनकुमार पंकज कुमार नाबा. पुत्रगण बुद्धप्रकाश पिन्की नाबा. पुत्री बुद्धप्रकाश मु0 मीरा देवा बुद्धप्रकाश सर.मौ. मीरा भाग 1/3 जा. ब्राह्मण नि.ग्राम भूस्वामी
				387	निजी	असिंचित	0.030	दीपक कुमार पुत्र बुद्धप्रकाश जाति वैश्य निवासी दतिया भूस्वामी
				1199	निजी	सिंचित	0.030	कल्लू पुत्र भागीरथ 1/3 प्रिन्स उर्फ हर्षवर्धन नाबा. पुत्र प्रेमनारायण तनय मातादीन हि0 2/3 निवासी ग्राम भूस्वामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1197	निजी	सिंचित	0.010	संतोष कुमार राम कुमार पिता लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				1198	निजी	सिंचित	0.320	कालका प्रसाद पिता भागीरथ ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				1218	निजी	सिंचित	0.030	श्यामसुन्दर शारदाशरण पिता रामचरण जाति दांगी हिस्सा 24/36 दिनेश कुमार दीपककुमार पिता सीताराम हिस्सा 12/36 ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				1219	निजी	सिंचित	0.380	श्यामसुन्दर शारदाशरण पुत्रगण रामचरण जाति दांगी हि 68/111 दिनेशकुमार दीपक कुमार पिता सीताराम ब्राह्मण हिस्सा 43/111 निवासी ग्राम भूस्वामी
				1222	निजी	सिंचित	0.220	मंयक कुमार मुकुल कुमार नाबा. तनय व सर. शारदाशरण जाति दांगी हिस्सा 32/61 तनय वनमाली पिता सीताराम हिस्सा 29/61 निवासी ग्राम भूस्वामी
				1223	निजी	सिंचित	0.080	कृष्णकान्त नाबा. पुत्र श्यामसुन्दर सर. चाचा शारदाशरण मंयक नाबा. तनय व सर. शारदाशरण दांगी रकवा 0.32 ग्याप्रसाद पुत्र तिज्जु 0.16 किशोरीशरण नाथूराम पातीराम पुत्रगण तिज्जु रकवा 0.13 जाति अहिरवार निवासी ग्राम भूस्वामी
				1234	निजी	सिंचित	0.080	शान्ती पुत्री पुन्ना कोरी निवासी ग्राम भूस्वामी
				1252	निजी	सिंचित	0.200	बलवीर पिता सीताराम पाल निवासी ग्राम भूस्वामी
				1251	निजी	सिंचित	0.290	भन्ता पिता मसलती जाति चमार निवासी
				1250	निजी	सिंचित	0.120	ग्राम भूस्वामी
				1247	निजी	सिंचित	0.010	
				1262	निजी	सिंचित	0.060	रामेश्वर शिवराम पिता काशीराम हिस्सा 2/3
				1261	निजी	सिंचित	0.080	रेखा वेवा पत्नी शोभाराम आकाश नाबा. पुत्र
				1307	निजी	सिंचित	0.190	शोभाराम सर. मौ रेखा हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				1260	निजी	सिंचित	0.110	रामस्वरूप आशाराम पुत्रगण बृजलाल मु. प्रेम वेवा बृजलाल भागसम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				1249	निजी	सिंचित	0.010	प्रकाश तनय अड़कू राजपति वेवा अड़कू जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी
				1248	निजी	सिंचित	0.050	ओमप्रकाश पिता काशीराम जाति कायस्थ निवासी सिंधवारी भूस्वामी
				1309	निजी	सिंचित	0.010	कालका प्रसाद पिता खच्छू जाति काछी निवासी ग्राम भूस्वामी
				1308	निजी	सिंचित	0.190	कालका प्रसाद पिता गोविन्ददास जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				1305	निजी	सिंचित	0.180	आशाराम पिता चुखर जाति काछी निवासी ग्राम भूस्वामी
				1304	निजी	सिंचित	0.170	मुलु पिता चुखर जाति काछी निवासी
				1347	निजी	सिंचित	0.040	ग्राम भूस्वामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1303	निजी	सिंचित	0.040	सुरेश पिता सूर जाति दांगी निवासी ग्राम भूस्वामी
				1302	निजी	सिंचित	0.050	रामजीशरण पुत्र भगवानदास जाति दांगी निवासी ग्राम भूस्वामी
				1350	निजी	सिंचित	0.200	लखनलाल पिता भगवानदास जाति दांगी निवासी ग्राम भूस्वामी
				1405	निजी	सिंचित	0.090	कैलाश जगदीश रामेश्वर पुत्रगण कामता प्रसाद
				1447	निजी	सिंचित	0.520	प्रेमा वेवा कामता प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				1404	निजी	सिंचित	0.060	रत्तो पुत्री सुल्ला रमजानशाह पिता दंगली भागसमान जाति मुसलमान निवासी ग्राम भूस्वामी
				1425	निजी	सिंचित	0.020	रामस्वरूप पिता सुखनन्दन 1/2 रामनाथ पिता विद्याधर 1/2 ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				1424	निजी	सिंचित	0.020	राधेश्याम, महेश, रामप्रकाश पुत्रगण लक्ष्मीनारायण विमला पुत्री लक्ष्मीनारायण निवासी ग्राम भूस्वामी
				1423	निजी	असिंचित	0.010	रामकली शीला मुन्नी कृष्णा मीरा अनीता
				1421	निजी	असिंचित	0.034	पुत्रियां रामचरण व कालकाप्रसाद नंदकिशोर राजेन्द्रप्रसाद पुत्रगण रामचरण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				1459	निजी	सिंचित	0.520	भागीरथ पिता दरयाव जाति काछी निवासी ग्राम भूस्वामी
				1458	निजी	सिंचित	1.000	सरमन पिता परवत 1/2 काशीराम किशोरी बल्लू रामकिशन पिता सरमन भागसम 4/10 कान्ती नाबा. पुत्री प्रीतम सर. बाबा सरमन भाग 1/10 जाति काछी निवासी ग्राम भूस्वामी
				1416	निजी	सिंचित	0.100	सुरेशचन्द्र पिता गोविन्ददास ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				1417	निजी	सिंचित	0.160	गिल्ले पिता मग्गू जाति नाई निवासी ग्राम भूस्वामी
				1419	निजी	सिंचित	0.200	नन्दलाल अशोक पिता रामसेवक डोली लता लाली ऊषा पुत्रियां रामसेवक जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/6 सियाशरण पिता कमतुआ रानी गुडडी मुन्नी पुत्रियां कमतुआ मु. नंदरानी वेवा कमतुआ भागसम 5/6 जाति बाढ़ई निवासी ग्राम भूस्वामी
				1422	निजी	सिंचित	0.060	कालका प्रसाद पिता रामचरण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				1439/1985	निजी	सिंचित	0.090	रामस्वरूप पिता सुखनन्दन जाति ब्राह्मण रकवा 1.64 जगदीश सिंह पुत्र भागीरथ जाति काछी रकवा 0.97 भूस्वामी
				1440	निजी	सिंचित	0.500	सरमन पिता परवत 1/2 काशीराम पिता सरमन 1/2 जाति काछी निवासी ग्राम भूस्वामी
				1446	निजी	सिंचित	0.560	जगदीश पुत्र कामता प्रसाद ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				1442	निजी	सिंचित	0.030	कालका प्रसाद पिता भागीरथ ब्राह्मण निवासी निवासी ग्राम भूस्वामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1348	निजी	सिंचित	0.010	रामजीशरण पुत्र भगवानदास जाति दांगी निवासी ग्राम भूस्वामी
				1349	निजी	सिंचित	0.230	लखनलाल पिता भगवानदास जाति दांगी निवासी ग्राम भूस्वामी
				1359	निजी	सिंचित	0.050	
				1353	निजी	सिंचित	0.080	
				1352	निजी	सिंचित	0.010	मैथलीशरण पिता दिलीप जाति दांगी निवासी ग्राम भूस्वामी
				1356	निजी	सिंचित	0.030	मु. शीला वेवा राधाचरण अनुराग, अंकुर, अशीष, आदित्य पुत्रगण राधाचरण जाति वैश्य नि.बडोनी
				1357	निजी	असिंचित	0.100	रामप्रसाद पिता रामसेवक दांगी निवासी ग्राम भूस्वामी
				1358	निजी	सिंचित	0.090	विक्रमसिंह रंजितसिंह नाबा. पुत्र राधावल्लभ सर. बाबा लखनलाल दांगी निवासी ग्राम भूस्वामी
				1369	निजी	सिंचित	0.050	ठाकुरदास पिता चुखर जाति काछी निवासी ग्राम भूस्वामी
				1259	निजी	सिंचित	0.030	
				1368	निजी	सिंचित	0.410	रघुनाथ पिता रामसेवक दांगी निवासी ग्राम भूस्वामी
				1235/2	निजी	सिंचित	0.020	परशुराम पुत्र देवी जाति गढ़रिया निवासी ग्राम भूस्वामी
				1306	निजी	असिंचित	0.010	रामस्वरूप आशाराम पुत्रगण बृजलाल मु. प्रेम वेवा बृजलाल भागसम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				1456	निजी	सिंचित	0.080	मंगलसिंह बा० खेमराज बल्ली नावा० पिता बृद्धा मु. राजा वेवा बृद्धा भागसमान जाति गढ़रिया निवासी ग्राम रकवा 0.12 पातीराम पुत्र कन्हैयालाल प्रजापति व रामबाबू पुत्र लक्खसिंह प्रजापति पुरानी छावनी ग्वालियर रकवा 0.68
				1455	निजी	सिंचित	0.090	रामकली पत्नी श्यामसुन्दर तिवारी दारुगर की पुलिया दतिया हि. 1/8 दीपक कुमार अरविन्द कुमार पुत्रगण देवीदयाल दुबे निवासी चूनगर फाटक दतिया हि. 1/8 ठाकुरदास पिता सूरें रकवा 0.09 लाड़ले पिता सूरें रकवा 0.49 जाति बागला निवासी ग्राम भूस्वामी आशाराम रामकिशोर पिता सूरें रकवा 0.63 जाति बागला निवासी ग्राम भूस्वामी
				1454	निजी	सिंचित	0.140	
				1449	निजी	सिंचित	0.080	दुर्गाप्रसाद तनय चिन्टे जाति बरार निवासी ग्राम भूस्वामी
				344	निजी	सिंचित	0.520	माफी मंदिर श्री शंकर जी महाराज प्रबंधक कलेक्टर महोदय जिलाधीश दतिया
				346	निजी	सिंचित	0.100	सुनीता पत्नी देवेन्द्र कुमार दीक्षित निवासी ग्वालियर भूस्वामी
				357	निजी	असिंचित	0.010	भगवानदास तनय रघुनी हि. 1/2 शिरोमणिसिंह रामजीशरण मुलामसिंह राममिलन पुत्रगण धनीराम रमका पुत्री धनीराम मु. मखन वेवा धनीराम भागसमान 1/2 जाति दांगी निवासी ग्राम भूस्वामी
				378	निजी	सिंचित	0.060	शोभाराम तनय सरू जाति दांगी निवासी ग्राम भूस्वामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				381	निजी	असिद्धित	0.280	माखन वेवा धनीराम शिरोमणि सिंह रामजीशरण मुलामसिंह राममिलन पुत्रगण धनीराम रमका पुत्री धनीराम 1/8 रमेश रामहजूर महेन्द्र पुत्रगण ज्वाला ठाकुरदास कामता भागीरथ पिता घटू श्रीलाल शिरोमणिसिंह पुत्रगण दयाराम निवासी सुजेंड रामेश्वर कोमल पिता सीताराम मु. अवध वेवा सीताराम विनो पुत्री नंदू 1/8 शिरोमणिसिंह रामजीशरण मुलाम सिंह राममिलन पुत्रगण धनीराम भाग 1/8 भंवरसिंह बा. किशोरी जगदीश नाबा. पुत्रगण पहाडसिंह सर. भाई भंवरसिंह राधिकाशरण पिता शियाशरण 1/16 काशीराम पिता महादेव सिंह 1/4 रामश्री वेवा आशाराम कालका प्रसाद मनीष कुमार पुत्रगण आशाराम सजय नीरज पिता महादेव मु. कस्तूरी वेवा महादेव जाति दांगी निवासी ग्राम भूस्वामी
				382	निजी	सिद्धित	0.060	विशाल पुत्र बुद्धप्रकाश जाति वैश्य निवासी दतिया भूस्वामी
				383	निजी	सिद्धित	0.300	किशोरीशरण बा. रामलाल नाबा. पुत्रगण कडोरा पारवती सुमन नाबा. पुत्रिया कडोरा मु. कस्तूरी वेवा कडोरा भाग 1/4 सर. मों कस्तूरी रजकू गौमती पिता पारीछत हि. 1/4 कालका प्रसाद पुत्र छोटेला मु. हिनौतिया बारी वेवा गुमान हि. 1/8 बाबू पिता हरवान 1/8 गोकलिया पिता कुजी 1/8 हरदास पिता खुबुआ हि. 1/8 जाति अहिरवार निवासी ग्राम भूस्वामी
				389 390	निजी निजी	असिद्धित सिद्धित	0.280 0.120	पवन कुमार पंकज कुमार नाबा. पुत्रगण बुद्धप्रकाश सर. मों मीरा वेवा बुद्धप्रकाश भाग 1/3 कल्लू पिता भागीरथ हि. 1/3 पवनकुमार पंकज कुमार नाबा. पुत्रगण बुद्धप्रकाश पिन्की नाबा. पुत्री बुद्धप्रकाश मु. मीरा वेवा बुद्धप्रकाश सर. मों मीरा भाग 1/3 जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				391	निजी	सिद्धित	0.150	मनोज कुमार कृष्ण मुरारी सतीश कुमार पुत्रगण दुर्गाप्रसाद भागसमान जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				392	निजी	सिद्धित	0.220	अजय कुमार विकास पुत्रगण बुद्धप्रकाश जाति वैश्य निवासी ग्राम भूस्वामी
				412	निजी	सिद्धित	0.300	कालका प्रसाद पिता भागीरथ ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				1200	निजी	सिद्धित	0.230	अशोक कुमार पुत्र कालका प्रसाद जाति
				1201	निजी	सिद्धित	0.030	ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				1202	निजी	सिद्धित	0.010	बलराम प्रेमनारायण पिता मातादीन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				1217	निजी	सिद्धित	0.200	संतोष कुमार राम कुमार पिता लक्ष्मीनारायण
				1215	निजी	सिद्धित	0.030	जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				1261	निजी	सिद्धित	0.080	रामेश्वर शिवराम पुत्रगण काशीराम भागसम 2/3
				1262	निजी	सिद्धित	0.060	रेखा वेवा पत्नी शोभाराम आकाश नाबा. पुत्र शोभाराम सर. स्वयं हि. 1/3 जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1326	निजी	सिंचित	0.010	मुलु खुमान ठाकुरदास आशाराम पुत्रगण घुखर हि. 1/2 कालका प्रसाद भगवानदास पिता खच्चू हि. 1/2 जाति काछी निवासी ग्राम भूस्वामी
				1350/1987	निजी	सिंचित	0.010	रामजीशरण पुत्र भगवानदास जाति दांगी निवासी ग्राम भूस्वामी
				1367	निजी	असिंचित	0.050	माफी मंदिर रामजानकी जी प्रबंधक कलेक्टर महोदय जिला दतिया
				1393	निजी	सिंचित	0.140	ठाकुरदास आशाराम लाडले रामकिशोर पिता सूरे भागसमान जाति गडरिया निवासी ग्राम भूस्वामी
				1216	निजी	सिंचित	0.040	श्यामसुन्दर शारदाशरण पिता रामचरन हि. 24/36 जाति दांगी दिनेश कुमार दीपक कुमार पुत्रगण सीताराम जाति ब्राह्मण हि. 12/36 निवासी ग्राम भूस्वामी
				1346	निजी	सिंचित	0.010	शियाशरण पिता जुगलकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
		(15)बड़ेरा		568	निजी	सिंचित	0.070	प्रताप पुत्र धारे जाति लोधी निवासी ग्राम भूस्वामी
				588	निजी	सिंचित	0.100	श्रीमती मीना पत्नी उमेशसिंह जाति तोमर
				604	निजी	सिंचित	0.130	निवासी 8 नं. कोठी सर्वोदय नगर शिवपुरी भूस्वामी
				590	निजी	असिंचित	0.010	श्रीमती मीना पत्नी उमेशसिंह जाति तोमर निवासी 8 नं. कोठी सर्वोदय नगर शिवपुरी भाग 1/2 जमूना पुत्र नन्दलाल 1/4 बलराम पुत्र जाहरसिंह भाग 1/4 जाति लोधी नि.ग्राम भूस्वामी
				589	निजी	असिंचित	0.040	ठाकुरदास पुत्र हरदयाल भाग 1/4 गोविन्ददास पुत्र बालकिशुन भाग 1/4 धनीराम देवप्रसाद पुत्र छन्दी भाग 5/12 लालाराम पुत्र छन्दी भाग 1/12 जाति लोधी निवासी ग्राम भूस्वामी
				605	निजी	सिंचित	0.040	अभिषेक शर्मा नाबा. पुत्र रामनिवास सर. दादी
				562	निजी	असिंचित	0.002	मु. भगवती देवा रामगोपाल शर्मा निवासी बड़ोनकला भूस्वामी
				606	निजी	सिंचित	0.040	गोविन्दशरण दिनेश कुमार पुत्रगण राधेश्याम
				607	निजी	सिंचित	0.040	भाग 2/3 नीरज पंकज निवेदन पुत्र
				690	निजी	सिंचित	0.040	भगवतशरण 1/3 जाति कायस्थ निवासी
				691	निजी	सिंचित	0.020	पद्योखरा भूस्वामी
				621	निजी	सिंचित	0.070	रामा पत्नी मंशाराम जाति लोधी निवासी ग्राम भूस्वामी
				622	निजी	सिंचित	0.070	नारायण पुत्र निरपत भाग 1/2 पतुआ तनय मंल्यू भाग 1/4 मुनिया वेवा चिन्नु जसरथ रूपसिंह तनय चिन्नु वेजंती पिस्ता पुत्री चिन्नु भाग 1/4 जाति लोधी निवासी ग्राम भूस्वामी
				677	निजी	सिंचित	0.030	अजमेरसिंह दामोदरसिंह तनय नवलसिंह जाति रावत निवासी ग्राम मैधोरा भूस्वामी
				674	निजी	सिंचित	0.040	घनाराम भरतसिंह तनय वनमाली भाग 5/12
				676	निजी	सिंचित	0.020	गीता रामकुमारी पुत्री वनमाली भागसम 1/12 सोनी पुत्र रंजीत भाग 1/2 जाति लोधी निवासी ग्राम भूस्वामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				694	निजी	सिंचित	0.080	श्रीमती भगवती पत्नी रामगोपाल शर्मा निवासी बड़ोनकला भूस्वामी
				687	निजी	सिंचित	0.020	गोविन्दशरण दिनेश कुमार पुत्रगण राधेश्याम भाग 2/4 नीरज, पंकज निवेदन तनय भगवत 1/4 जाति कायस्थ रामदकेली वेवा कामता शालिग्राम रामेश्वर पुत्र कामता पिस्ता इमरती उर्मिला पुत्रियां कामता भाग 1/4 जाति लोधी निवासी ग्राम भूस्वामी
				18	निजी	असिंचित	0.030	ओमप्रकाश तनय सुन्नू जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				693	निजी	सिंचित	0.010	भगवानदास तनय रामप्रसाद जाति लोधी निवासी ग्राम भूस्वामी
			(16)बड़ोनकला	1438	निजी	सिंचित	0.090	छोटेलाल तनय कुंजी जाति कलार निवासी डबरा भूस्वामी
				1437/2	निजी	असिंचित	0.030	लक्ष्मण तनय महेन्द्रसिंह जाटव निवासी ग्राम भूस्वामी
				1435	निजी	सिंचित	0.120	नत्थूसिंह हरनामसिंह पुत्र मेहरबानसिंह जाति रावत निवासी कोटरा
				1433	निजी	सिंचित	0.130	राजेश कुमार तनय हरचरण भाग 9/169 निवासी बड़ोनकला नत्थूसिंह हरनामसिंह तनय मेहरबानसिंह समभाग हि. 160/169 जाति रावत निवासी ग्राम भूस्वामी
				1423	निजी	असिंचित	0.012	राजेश कुमार तनय हरदयाल जाति ब्राह्मण
				1416/1	निजी	सिंचित	0.020	निवासी ग्राम भूस्वामी
				1417	निजी	सिंचित	0.080	
				1418	निजी	सिंचित	0.060	
				1407	निजी	सिंचित	0.060	
				1701	निजी	सिंचित	0.110	उत्तमसिंह राममिलन पुत्र विशालसिंह हिस्सा रकवा 0.38 जयप्रकाश तनय किशनलाल हि. रकवा 0.40 जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				1702	निजी	सिंचित	0.040	जयप्रकाश तनय किशनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूस्वामी
				1392	निजी	असिंचित	0.002	रतीराम बृजनन्दन राजाराम सालिग्राम बृजकिशोर मायाराम पुत्र माधो चिरोंजी रामप्यारी सुशीला कलावती पुत्रियां माधो हि. 10/11 प्रभा वेवा बाबूलाल सरोज गीता पुत्री बाबूलाल कलार हि. 1/11 निवासी ग्राम भूस्वामी
				1394	निजी	सिंचित	0.020	देवप्रसाद तनय रक्सू भाग 3/4 प्रभुदयाल बा. चन्दनसिंह पृथ्वीराज नाबा. सर. पिता देवप्रसाद जाति लोधी हिस्सा 1/4 निवासी बड़ेरा भूस्वामी
				1395	निजी	सिंचित	0.020	देवप्रसाद पुत्र रक्सू जाति लोधी हिस्सा 0.12 निवासी ग्राम बड़ेरा गोरी शंकर पुत्र हरदयाल ब्राह्मण निवासी ग्राम बड़ोनकला हिस्सा रकवा 0.25 भूस्वामी
				1398	निजी	सिंचित	0.010	देवप्रसाद तनय रक्सू हिस्सा 3/4 प्रभुदयाल
				1399	निजी	सिंचित	0.030	बा. चन्दनसिंह पृथ्वीराज नाबा. सर. पिता देवप्रसाद समभाग 1/4 निवासी बड़ेरा भूस्वामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1402	निजी	सिंचित	0.030	देवेन्द्रसिंह सुरेन्द्रसिंह पुत्र विचित्रसिंह व गुल्लो
				1408	निजी	सिंचित	0.030	वेवा विचित्रसिंह जाति रावत निवासी ग्राम भूस्वामी
				1405	निजी	सिंचित	0.020	
				1697	निजी	सिंचित	0.040	
				1401	निजी	सिंचित	0.010	देवेन्द्रसिंह सुरेन्द्रसिंह पुत्र विचित्रसिंह जाति रावत भागसम निवासी ग्राम भूस्वामी
				1386	निजी	असिंचित	0.010	रतौराम बृजनन्दन शालिकराम बृजकिशोर मायाराम पुत्र माधों चिरौंजी रामप्यारी कलावती सुशीला पुत्रियां माधों जाति कलार निवासी ग्राम भूस्वामी हिस्सा सम 10/11 प्रभाबाई वेवा बाबूलाल सरोज गीता पुत्रियां बाबूलाल समभाग 1/11 जाति कलार निवासी ग्राम भूस्वामी
				1387	निजी	असिंचित	0.020	छोटेलाल तनय कुंजी कलार निवासी ग्राम भूस्वामी
			(17)गुलियापुर	205	निजी	सिंचित	0.040	नन्दकिशोर पुत्र रामचरण जाति काछी निवासी ग्राम भूस्वामी
				206	निजी	सिंचित	0.030	धनीराम तनय रामदास भाग रकवा 31/2 आरे प्रतिपालसिंह हरनामसिंह पुत्रगण गरीबे भाग रकवा 3/2 आरे लोधी हरीराम तनय रामदास जानकी पुत्री रामदास मु. रामकली वेवा रामदास भागसम रकवा 0.51 आरे जाति काछी निवासी ग्राम भूस्वामी
				207	निजी	असिंचित	0.010	वनमाली मंगल पुत्र राजाराम भागसमान 3/4 मु0 त्रिवेणी बेवा राजाराम भाग 1/4 जाति काछी निवासी ग्राम भूस्वामी
				211	निजी	सिंचित	0.050	मनीराम पुत्र मंगली निवासी जिंगनिया तहसील सेंवड़ा भाग 8/19 मु. पार्वती वेवा प्रेमनारायण भाग 3/95 कोमलसिंह प्रीतमसिंह मंशाराम वल्ली पुत्रगण प्रेमनारायण भाग 37/95 पन्नालाल पुत्र सूर भाग 3/19 जाति काछी निवासी ग्राम भूस्वामी
				212	निजी	सिंचित	0.050	कोमलसिंह पुत्र प्रेमनारायण हिस्सा 4/31 कोमलसिंह प्रीतमसिंह मंशाराम वल्ली पुत्रगण प्रेमनारायण भागसमान 27/31 जाति काछी निवासी ग्राम भूस्वामी
				214	निजी	सिंचित	0.100	शिवचरन पुत्र सुन्नू जाति ब्राह्मण निवासी बड़ेरा भूस्वामी
			(18)गोराघाट	17	निजी	असिंचित	0.030	रामचन्द्र पुत्र बासूमल जाति सिन्धी निवासी दानाओली लश्कर भूस्वामी
				29	निजी	असिंचित	1.210	रविकुमार पुत्र हरचरन जाति अग्रवाल निवासी खालियर भूस्वामी
				35	निजी	असिंचित	0.520	देवेन्द्र कुमार कमठान पुत्र सरस्वती प्रसाद जाति कायस्थ निवासी शिवपुरी भूस्वामी
				82/1	निजी	सिंचित	0.170	सीताराम पुत्र सरू जाति जाटव निवासी कोटरा भूस्वामी
				83/1	निजी	असिंचित	0.020	सीताराम करनासह बटू पुत्रगण सरू जाति जाटव निवासी कोटरा भूस्वामी
				83/2	निजी	सिंचित	0.130	करनासिंह पुत्र सरू जाति जाटव निवासी कोटरा भूस्वामी
				83/3	निजी	सिंचित	0.110	सीताराम तनय सरू जाति जाटव निवासी ग्राम भूस्वामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				326	निजी	सिंचित	0.300	किशोरीलाल आधराम पुत्रगण हरदेव मु खुमानो वेबा हरदेव भागसमान जाति वागला निवासी कोटरा भूस्वामी
				325	निजी	सिंचित	0.150	केशरिया पुत्र हल्लू जाति गड़रिया निवासी
				324	निजी	सिंचित	0.230	ग्राम भूस्वामी
				333	निजी	सिंचित	0.290	
				329	निजी	सिंचित	0.090	
				332	निजी	असिंचित	0.070	किशुनलाल मोतीलाल पुत्रगण पन्नालाल भागसम 1/2 बट्टलाल हुकुमसिंह पुत्रगण पन्नालाल भागसम 1/3 सूरतसिंह पुत्र छतरसिंह 1/6 जाति रावत निवासी कोटरा भूस्वामी
				331	निजी	सिंचित	0.380	गोविन्दसिंह तनय सूरतसिंह जाति रावत निवासी ग्राम भूस्वामी
				41	निजी	असिंचित	0.320	पवनदेवी पत्नी किशुन कुमार जाति अग्रवाल निवासी ग्वालियर भूस्वामी
				18	निजी	असिंचित	0.080	भारती वेवा श्यामलाल नरेश कुमार पुत्र
				42	निजी	असिंचित	0.090	श्यामलाल भागसमान जाति सिन्धी निवासी दानाओली लश्कर भूस्वामी
				40	निजी	असिंचित	0.250	गोवर्धनदास पुत्र बासूमल जाति सिन्धी निवासी दानाओली लश्कर भूस्वामी
				43	निजी	असिंचित	0.680	रामचन्द्र पुत्र बासूमल जाति सिन्धी निवासी दानाओली लश्कर भूस्वामी
				28	निजी	असिंचित	0.100	पवनदेवी पत्नी किशुन कुमार जाति अग्रवाल निवासी ग्वालियर भूस्वामी
				27	निजी	असिंचित	0.320	महेश कुमार पुत्र बासूमल जाति सिन्धी
				36	निजी	असिंचित	0.090	निवासी दानाओली लश्कर भूस्वामी
			(19)कोटरा	648	निजी	असिंचित	0.002	श्रीमती मनकू देवी पत्नी झानसिंह जाति कमरिया निवासी दुरावली जिला ग्वालियर भूस्वामी
				634	निजी	असिंचित	0.010	उमाचरण तनय शिवचरण भाग 1/4 जाति वेश्य हरीदार पुत्र जगन्नाथ भाग 3/20 जाति कोरी निवासी डबरा जगदीश तनय बट्टी प्रसाद रमेश प्रसाद तनय बट्टी प्रसाद निवासी बडोनकला सीताराम पुत्र नन्कूलाल भागसमान 1/4 जाति वेश्य निवासी कृष्णपुरा डबरा वानसिंह वीरेन्द्रसिंह पुत्रगण लल्लूसिंह जाति रावत निवासी भूस्वामी
				590	निजी	असिंचित	0.002	दिलीपसिंह पुत्र धनीराम जाति कोरी निवासी बडोनकला ग्राम भूस्वामी
				597	निजी	सिंचित	0.100	भीकनसिंह, प्रतापसिंह बा. प्रीतमसिंह नाबा. तनय सर. गंगासिंह भागसमान जाति कमरिया निवासी मेहर जिला ग्वालियर भूस्वामी
				585	निजी	सिंचित	0.100	रामदास आधराम सियाशरण रामजीत पुत्रगण राजाराम जाति रावत निवासी ग्राम भूस्वामी
				531	निजी	सिंचित	0.100	रामगोपाल रामप्रताप विजेंद्रसिंह नाबा. तनय व सर. जगदीशसिंह भागसमान जाति निवासी ग्राम भूस्वामी
				677/1	निजी	असिंचित	0.030	किशुनलाल पुत्र पहलवानसिंह जाति रावत निवासी पयोखरा भूस्वामी
				677/2	निजी	असिंचित	0.010	अभय कुमार तनय श्यामलाल जाति सेन निवासी ग्राम भूस्वामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				530	निजी	सिंचित	0.060	रामनाथ पुत्र मेहरबानसिंह जाति रावत निवासी ग्राम भूस्वामी
				518	निजी	सिंचित	0.080	महेश कुमार पुत्र अगरसिंह भाग रकबा 0.23 गोयेश नाबा. तनय किशोरी भाग रकबा 0.12 रावत बृजकिशोर कमलेश कुमार तनय शिवचरण भागसमान 1/8 जाति झों निवासी ग्राम बड़ोनकला भूस्वामी
				528	निजी	सिंचित	0.100	महेन्द्रसिंह पंजाबसिंह तनय करनसिंह
				529	निजी	सिंचित	0.100	भागसमान जाति रावत निवासी ग्राम भूस्वामी
				532	निजी	सिंचित	0.130	
				517	निजी	सिंचित	0.100	कदीर मोहम्मद तनय इशाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम भूस्वामी
				675	निजी	सिंचित	0.020	घरनसिंह महेन्द्रसिंह पुत्रगण किशुनलाल भाग 1/2 हाकिम सिंह तहसीलदार सिंह पुत्रगण सुनमानसिंह भागसमान 1/2 जाति रावत निवासी ग्राम भूस्वामी
				676	निजी	असिंचित	0.020	किशुनलाल पुत्र पहलवानसिंह जाति रावत निवासी पचोखरा भूस्वामी
				547	निजी	सिंचित	0.160	रन्जोरसिंह पुत्र बादामसिंह भाग 1/6 नारानसिंह तनय बादाम सिंह भाग 1/6 श्रीलाल गुपाल तनय तुलसा भाग 2/3 जाति रावत निवासी ग्राम भूस्वामी
				575	निजी	सिंचित	0.060	ओमप्रकाश पुत्र नाथूराम व प्रमोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी सुभाष गंज डबरा भूस्वामी
				577	निजी	सिंचित	0.040	सुरेश कुमार तनय झगड़ू जाति जाटव निवासी ग्राम भूस्वामी
				578	निजी	सिंचित	0.020	रामसिंह धानसिंह तनय रूपसिंह भाग 1/2 जाति रावत महेन्द्रसिंह तनय घनसुन्दर भाग 1/2 रावत निवासी डबरा भूस्वामी
				584	निजी	सिंचित	0.150	अनिल कुमार नाबा. पुत्र नारान जाति साहू सर. मों मीरा निवासी ग्राम भूस्वामी
				519	निजी	सिंचित	0.050	गजराजसिंह पुत्र रामदयाल जाति रावत निवासी ग्राम भूस्वामी
				438	निजी	सिंचित	0.080	सुन्दरलाल तनय फेरनसिंह जाति रावत निवासी ग्राम भूस्वामी
				673	निजी	सिंचित	0.010	सुनमानसिंह पुत्र धीरजसिंह जाति रावत निवासी ग्राम भूस्वामी
				549	निजी	सिंचित	0.100	जगदीशसिंह तनय श्यामलाल रावत निवासी ग्राम भूस्वामी
				548	निजी	सिंचित	0.150	रामगोपाल रामप्रताप विजेन्द्रसिंह नाबा. तनय सर. जगदीशसिंह भागसमान 61/82 जाति रावत रफीक खों तनय पुन्ने खों भाग 21/82 निवासी ठाकुर बाबा के पास डबरा भूस्वामी
				583	निजी	सिंचित	0.050	मु. भागो वेवा राजाराम, रामदास, आदराम सियाशरण रामजीत पुत्र राजाराम जाति रावत नि. ग्रा.भूस्वामी
				550	निजी	असिंचित	0.040	सानल स्टान प्रोडेक्सन प्राईवेट लिमिटेड गोराघाट
				554	निजी	असिंचित	0.020	द्वारा अतुल कुमार पुत्र जी.एस. सकसैना निवासी ग्वालियर भूस्वामी
				642	निजी	असिंचित	0.010	कामता प्रसाद तनय भगवानदास जाति ब्राह्मण व राजेन्द्र कुमार तनय बाबूलाल जाति वेश्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								भागसमान निवासी बडोनकला भूस्वामी
				635	निजी	असिंचित	0.040	श्रीमती लक्ष्मी पत्नी लल्ला उर्फ सोहनसिंह जाति कमरिया निवासी ग्वालियर भूस्वामी
				630	निजी	असिंचित	0.020	राजाराम तनय माधों जाति शिवहरे निवासी बडोनकला भूस्वामी

[फा. सं. भाराप्र/प.का.इ./ग्वालियर/2007-08/ग्वालियर-झांसी/दतिया/3डी]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th December, 2007

S.O. 2199(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 18 (E), dated the 9th January, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 75 on stretch of land from Km. 52.00 to Km. 84.80 (Gwalior-Jhansi Section) in Datia District, in the State of Madhya Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification has been published in "Dainik Bhaskar" and "Dainik Acharan", both dated the 17th February 2007; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 52.00 to Km. 84.80 (Gwalior-Jhansi Section) on National Highway No. 75 in the State of Madhya Pradesh

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of the land owner / interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Datia	Datia	(1) Chirula	1305	Private	Non Irrigated	0.120	Murari Lal S/o Narayan das Hissa rakva 0.43 Bhalendra Ba. Mahendra Naba. S/o Ram sharan, Sukh devi, Saroj Ba. Rani, Mohini Naba. D/o Ram sharan Sir. Bhai Bhalendra rakva 0.32 Niwasi village Bhuswa
				1400	Private	Non Irrigated	0.006	Kanhai s/o Chabra caste Malla Niwasi village Bhuswa
				1335	Private	Non Irrigated	0.002	Amar singh S/o Sarman cast Yadav Niwasi village Bhuswa
				1336	Private	Non Irrigated	0.002	Satyawati w/o Ghanshyam Das & Chanda Devi w/o Murari Lal Goswami Niwasi Datia Bhuswa
				1337	Private	Non Irrigated	0.002	Govinid das, Daya ram, Shiv charan S/o Bhagirath cast Prajapati Niwasi Village Bhuswa
				1338	Private	Non Irrigated	0.002	Nareish S/o Bhaiya Lal cast Kori Niwasi Village Bhuswa
				1339	Private	Non Irrigated	0.002	Sunder Lal S/o Mattu cast Kori Niwasi Village Bhuswa
				1340	Private	Non Irrigated	0.002	Madhusudan S/o avadhsharan cast Bramhan Niwasi Village Bhuswa
				1341	Private	Non Irrigated	0.002	Dhaniram S/o Chiman cast Ahirwar Niwasi Village Bhuswa
				1343	Private	Non Irrigated	0.002	Mahendra Pratap Sharma S/o Keval ram Sharma, Murti Manohar s/o Mahendra Pratap Sharma Niwasi Village Bhuswa
				1344	Private	Non Irrigated	0.002	Rajiv Satyam s/o Panna Lal Anuradha, Manisha, Minaskhi d/o Panna Lal Madhuri w/o Panna Lal cast Kayastha Niwasi Village Bhuswa
				1345	Private	Non Irrigated	0.002	Jagdish s/o sarman cast Yadav Niwasi Village Bhuswa
				1342	Private	Non Irrigated	0.002	Devendra Kumar s/o Bhagwan Das Ram rati wid/o Bhagwan das cast Bramhan Niwasi Village Bhuswa
				1296	Private	Non Irrigated	0.022	Bhagwan Das, Prabhu Dayal S/o Nand Lal, Ramla Ram Kunvar D/o Nand Lal 1/3 Tulsi Raghuvir. Chatur singh S/o Ram nath Deva Wid/o Ram Nath 1/3 chappa Halke Brij Kishore s/o Gaanu 1/3 cast Malla Niwasi Village Bhuswa
				1293	Private	Non Irrigated	0.040	Murari Lal S/o Narayan das Goswami Part 1/3 Niwasi Datia ,
				1294	Private	Non Irrigated	0.030	Shankuntla w/o Mahesh Kumar Niwasi Parsodaya Tatarpur Hissa 1/3 , Mahesh chandra s/o Batoli prasad, Adesh kumar s/o suresh chandra 1/3 cast gupta Niwasi Datia Bhuswa
				1402	Private	Non Irrigated	0.016	Khayali s/o Mannu cast Kevat Niwasi Village Bhuswa
				1621	Private	Non Irrigated	0.010	Kuthule s/o Harnam cast Ahirwar part 1/2, Manik chand s/o Bhajan Lal rai, Beni s/o Khanjua, Murari Lal s/o narayan das goswami, Bhanu Pratap, Anand kumar minor s/o shiv charan geeta minor d/o shiv charan sharma M/o ram kali & ram kali widow /o shiv charan , Sureash s/o Kallu lohar , gyasi S/o Khanjua Under Hissa 1/2 Niwasi Village Bhuswa
			(2) Kala Pahad	68/3	Private	Irrigated	0.110	Hemant kumar, Rakesh kumar s/o Bhigha ram cast sindhi Niwasi Mudiyan ka Kua Datia Bhuswa
				74	Private	Irrigated	0.200	Reeta w/o Rakesh Kumar, Neetu w/o Vishnu Kumar, Kalpna w/o Satish Chandra cast Agrawal part same Niwasi Datia Bhuswa
				75	Private	Irrigated	0.030	Smt. Rachna w/o Radheshyam cast Brahman Niwasi Chota
				152/1	Private	Irrigated	0.090	Bazar Aasomai ki Gali Datia Bhuswa
				152/2	Private	Irrigated	0.080	Kanhai s/o Dabhre caste Malla Niwasi village Dera Chirula
				153	Private	Irrigated	0.050	Bhuswa
				154	Private	Irrigated	0.030	Kanhai s/o Dabhre caste Malla Niwasi village Dera Chirula Bhuswa Rakva 0.33 Aare Shri Shri 108 Tyagi Ram kumar Das Chella Guru Tyagi Narsingh das ji Maharaj Rakva 0.32 Aare Niwasi Village Bhuswa
				187	Private	Irrigated	0.030	Dhaniram S/o Ram Bharose, Shiv Kumari w/o Dhani ram
				186	Private	Irrigated	0.030	Rameshwer Prasad, Ajeet Kumar s/o Dhaniram Part same cast Mahajan Niwasi Village Bhuswa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				158	Private	Non Irrigated	0.080	Sanjeev Kumar s/o Gulab Chandra part 0.04 part 1/14 cast Agrawal Niwasi Datia girja Prasad Uma charan s/o Manjua rakva 0.13 Rajesh s/o Kanhaiya Lal cast Vaisya rakva 0.06 Niwasi Gandhi Road Datia Murari Lal s/o Narayandas part 1/2 cast Brahman Niwasi Datia Bhuswa
				180	Private	Irrigated	0.010	Sanjeev Kumar s/o Gulab Chandra rakva 0.15 cast Agrawal Niwasi Bhatyara Mu. Datia Ashok Kumar s/o Jagdish Prasad rakva 0.16 cast Agrawal Niwasi Govind Ganj Datia, Puspha Devi w/o Kamlesh Tiwari rakva 0.32 cast Brahman Niwasi Datia, Bhujwal, Mansukh s/o Nand Kishore Rakva 0.26 cast Rai Niwasi Simradha Jhansi (U.P.) Ajay Kumar S/o Lakhan Lal rakva 0.26 cast Brahman Niwasi Nandan pura khati Baba ke pass Jhansi Girja Prasad, Umacharan s/o majua part rakva 0.60 Bhag saman cast Kevat Niwasi Dera Gandhari Rajesh s/o Kanhaiya Lal cast Vaishya rakva 0.20 Niwasi Gandhi Road Datia Rajkumari w/o Kishori cast Kevat Niwasi Dera Gandhari rakva 0.10 Kamla d/o kalilcharan rakva 0.06 cast Kevat Niwasi Dera Gandhari Bhuswa
		(3)Gandhari		424	Private	Non Irrigated	0.080	Rakesh, Satyapal s/o dharmchandra cast Brahman Niwasi Jhansi U.P.) Bhuswa
				425	Private	Non Irrigated	0.190	Khusali s/o Halku cast Ahirwar Niwasi village Lmaycha Bhuswa
				487	Private	Non Irrigated	0.024	Balwan singh, Bhagwan singh s/o Dayaram Mu. Thakuran Dulaiya widow Dayaram in sum bhag cast Yadav Niwasi village Bhuswa
				488	Private	Non Irrigated	0.044	Rajendra mohan s/o Kishan chandra Niwasi Gwalior Bhuswa
				489	Private	Non Irrigated	0.044	Ajeet singh s/o Amreek singh cast Punjabi Niwasi Jhansi (U.P.) Bhuswa
				491	Private	Non Irrigated	0.024	
				678	Private	Non Irrigated	0.050	Phool singh s/o Baijnath rakva 0.29 Chotelal s/o Baijnath rakva 0.18 cast malha Niwasi village, Avtar singh s/o Amreek singh cast Punjabi rakva 0.36 Niwasi Jhansi (U.P.), Smt. Mamta w/o Sandeep Saxena rakva 0.22 Niwasi civil line Jhansi (U.P.) Satya prakash s/o suraj parakash rakva 0.73 cast Vaisya Niwasi Jhansi (U.P.) Bhuswa.
				686	Private	Non Irrigated	0.090	
				723	Private	Non Irrigated	0.110	Prakash, Gokul s/o Khemchandra Mulayam S/o Asharam Kishna, Kala s/o Asharam part 1/2 Sukhlal Manohar Balwan Jagdish Prem narayan hari singh s/o Ram sevak Meera Rani Janika d/o Ram sewak Mu. Ghenda Rani W/o late Ram sewak wa koshal bd. Amit nabalik s/o Balkrishan Prabha Ruby naba d/o Bal krishan sir Ma. self mu. Sukhratan W/o late Bal krishan Part 1/6 Ramwati d/o Nirpat part 1/6 Ram Dayal Santu Lakhan s/o Kallu Kamma dropadi d/o kallu Mu. sevrani w/o late kallu part 1/6 cast malha niwasi village bhuswa
				724	Private	Irrigated	0.060	Ashok kumar s/o Jagdish Prasad Agrawal Niwasi Datia Part 1/8 Murarilal s/o Narayan das Goswami part 1/8 cast Brahman Niwasi Dhantulpura Datia Mulayam s/o Asha ram 1/4 Kishna, kala d/o Asha ram 1/2 cast Malha Niwasi village Bhuswa
				764	Private	Irrigated	0.040	Shri Lal s/o Jagannath Manoj HarKishore ba. Har das naba s/o Hori Lal sir. Ma. Kaiwati d/o Horilal Mu. Lalla daughter w/o late Horilal s/o Jaggannath saman bhag cast malhar Niwasi village Dera Gandhari
		(4) Dugurai		376	Private	Irrigated	0.150	Shyma bai d/o Dabbu w/o Chunni Gadriya Niwasi village Bhuswa
				228	Private	Irrigated	0.410	Surendra Kumar s/o Vishunnath Brahman Niwasi Datia Bhuswa
				177	Private	Non Irrigated	0.044	Ravindra Kumar s/o Kanhaiya Lal cast Sindhi Niwasi Datia Bhuswa
				178	Private	Non Irrigated	0.080	
				179	Private	Non Irrigated	0.120	Vinod Kumar s/o Bhagwan das cast Brahman Niwasi Datia Bhuswa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				181	Private	Non Irrigated	0.120	Shailendra Kumar S/o Radhacharan Kayasth Niwasi Datia Bhuswa
				189	Private	Non Irrigated	0.080	Smt. Malti Devi w/o Mahesh Chandra Rohit Kumar s/o Lakshmi Chandra cast Agrawal Niwasi Gwalior Bhuswa
				204/1	Private	Non Irrigated	0.240	Subhash Chandra s/o Prakash Chandra smt. Smita devi w/o Anil Kumar Agrawal Rakva 0.08hect. . Ramkishore s/o Ramtez Litoria rakva 0.04 hect. Rajendra Prasad s/o Bhagwati Narayan Sharma Narendra kumar s/o Ramchandra Pariani suresh kumar s/o Shriram soni, Om prakash s/o Butan lal Gupta rakva 0.23 hect. Niwasi Datia Bhuswa
				204/2	Private	Non Irrigated	0.060	Rawatpura Sarkar Lok Kalyan Trust President Shri Ravi Shanker Ji Maharaj Rawatpura Sarkar Bhuswa
				218/1	Private	Non Irrigated	0.030	Arun Kumar s/o Shyamsunder cast Chaorasia Niwasi Datia Bhuswa
				219	Private	Non Irrigated	0.040	
				218/2	Private	Non Irrigated	0.020	Abdul Saleem Khan s/o Abdul Hamid Khan Niwasi police line Datia Bhuswa Radhelal F/o Jugal Kishore part 1/20 Smt Rammurthy w/o Roop Kishore Datia ;Part 1/20 Kalyaln singh s/o Bahoran part 2/30 Dilip Kumar s/o Babu lal Gupta Niwasi Daita part 7/30 Shiv oarayan s/o Deen dayal part 1/2 cast Brahman Niwasi station road Datia Bhuswa
				221/1	Private	Non Irrigated	0.080	
				221/2	Private	Non Irrigated	0.070	Rakesh kumar s/o Shyamsunder Chaorasia Niwasi Datia Bhuswa
				16	Private	Non Irrigated	0.050	Smt. Vaine Bai w/o Balaprasad tiwari part 37/39 Smt. Deepti w/o Vinod kumar dubey part 2/39 Niwasi Datia
				209	Private	Non Irrigated	0.012	Ramsakhi d/o Durgha prasad Umashanker s/o Durgha prasad bhag saman 1/2 Durgha prasad s/o Bhaoran part 1/2 cast pal Niwasi village bhuswa
				215	Private	Non Irrigated	0.040	Ramchnadra s/o Chainamal cast Sindhi part 1/2 mohan s/o Radheshyam Gandhi part 1/2 Niwasi Datia Bhuswa
				181/392	Private	Non Irrigated	0.140	Krishan Prakash Anand Prakash s/o Praghilal bhag saman cast Kayasth Bhuswa
		(5) Chitua	671	Private	Irrigated	0.010		
			675	Private	Irrigated	0.090		
			656	Private	Irrigated	0.040		Nandpal, Judendra s/o Dharamchandra Niwasi Jhansi (U.P.) Bhuswa
			657	Private	Irrigated	0.040		
			659	Private	Irrigated	0.040		
			680	Private	Irrigated	0.320		Brijlal, Sitaram s/o Tulai Harkunvar d/o tulai sman bhag rakva 0.23 hect. Harcharan d/o chukhe rakva 0.05hect. Ganga ram Devki Nandan s/o Tulai rakva 0.02 hect. cast Ahirwar Niwasi village Larayta Lakshmikant s/o Omprakash cast Vaishya Niwasi Datia Rakva 0.13 Smt. Geeta w/o Shri Suresh chandra Shukl cast Brahman Niwasi Datia rakva 0.16 ba Virendra Kumar Puspendra kumar s/o Govind das rakva 0.12 part 1/2 cast Brahman Niwasi Datia Ramnanger Bhuswa Ramjanki s/o Brijlal Cast Ahirwar Niwasi villlage Lairata Bhuswa
			681	Private	Irrigated	0.090		
			679	Private	Irrigated	0.300		Brijlal Gangaram Sitaram s/o Tulai Harkunvar d/o tulai saman bhag 4/12, Brijlal Devki nandan Gangaram Sitaram s/o Tulai harkunvar d/o Tulai part 1/12 Harcharan s/o Chukkhe part 7/12 cast Ahirwar Niwasi village Laraita Bhuswa
		(6) RamNagar	377	Private	Irrigated	0.010		Rajiv Lochan s/o Shanker prasad part 1/2 Sushila devi w/o late Kailash Narayan ba Shanker Prasad S/o Umacharan part 1/2 Niwasi village Bhuswa
			376 min 6	Private	Non Irrigated	0.004		Vishwanath Singh Parvat dev singh naba s/o Swami prasad sir. Ma. Puspha devi Niwasi village bhuswa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				376 min 1 375/1 min 1 mese	Private	Non Irrigated	0.004	Prabhaker s/o Jeeva ram Pande Niwasi Datia Rakva 0.016 Thakur Das Jagdish dinesh Parasram s/o Dayaram part 0.013 vishvanath Kalicharan Ramesh s/o Bhaiyalal rakva 0.020 Munsi khan s/o Nathu Khan rakva 0.023 Noor Mohammad s/o Sekh Visharad High school ke piche rakva 0.023 Manoj kumar s/o Prabhakar Rishabh Sarambh naba S/o va sir Manoj kumar Pakoodia Mahadev rakva 0.014 Naseem Begum w/o Abbas ali Rakva 0.017 Riaz mohammad s/o Mohammad rakva 0.015 niwasi Sayani Mohalla Abdul Sakur s/o Abdul Gafoor Dantare ki Nariya rakva 0.020 Maqsood s/o Babu Kha rakva 0.030 niwasi Sayani Mu. Irsad s/o Abdula Kha rakva 0.017 Niwasi (U.P.) Mu. Parveen Bano w/o Unish Ahmad kha Niwasi Anand Tokiz ke pass rakva 0.018 Hanif s/o Mehboob Khan rakva 0.008 niwasi village Bhuswa
				376 min 4	Private	Non Irrigated	0.007	Asha w/o Komal singh Niwasi village Bhuswa
				376 min 3	Private	Non Irrigated	0.008	Rashmi d/o Suneel kumar Chaorasia Niwasi village Bhuswa
				375/1 min 2 376 min 1	Private	Non Irrigated	0.010	Sagun w/o Shanker lal Shaho Niwasi village Bhuswa
				375/1 min 3	Private	Non Irrigated	0.004	Krishana w/o Lakshmi Narayan Niwasi village Bhuswa
				375/2/1 mese	Private	Non Irrigated	0.105	Mannu s/o Chatura rakva 0.272 Lakshmi Narayan s/o Dhannu rakva 0.018 ku. Nidhi d/o Om prakash Khare rakva 0.276 Lakhsman s/o Chatura rakva 0.526 Rajendra s/o Hamarayan rakva 0.002 Gannu s/o Chatura 0.186 Brijlaj s/o Ramchandra rakva 0.013 Jeetendra Puspendra Stenedra & Raghvendra s/o Ramesh Chandra va usha w/o Ramesh Chandarakva 0.007 Badri Prasad s/o Malkhan rakva 0.011 Manoj kumar s/o Sligram rakva 0.018 Smt Tara Devi w/o Jagdish rai rakva 0.019 pretee w/o Pankaj jain rakva 0.009 Satendra naba s/o ba sir Ramesh chandra brijmohan naba s/o ramesh chandra sir Tau Vishunath rakva 0.002 Niwasi village Bhuswa Brijpal s/o Ramcharan Arjaria rakva 0.006 Niwasi village Bhuswa.
				375/2/1 mese	Private	Non Irrigated	0.005	Rajendra Kumar s/o Hamarayan Khatiek Niwasi Koanch 0.005 Satyendra naba son va sir Ramesh chandra Brijmohan naba Rameshchandra sahu sir Tau Vissunnath s/o Bhaiya lal rakva 0.006 Niwasi village Bhuswa
				271/ min 2	Private	Non Irrigated	0.011	Uddat singh s/o Heera singh rakva 0.149 Mithla devi w/o Mangal singh rakva 0.013 Niwasi village Bhuswa
				263/2 mese 262/2 mese	Private	Non Irrigated	0.001	Om Prakash s/o Mangu Balmik Niwasi Chun Nagar Fatak Datia Bhuswa
				262 min 1 263 min 1	Private	Non Irrigated	0.003	Smt. Shobha Bharti w/o Rajendra Bharti Smt. Suman Bharti w/o Rakesh Bharti Smt. Sarita w/o Arun Bharti rakva 0.180 Sita ram s/o Matai rakva 0.030 Ram sewak s/o Ayodhya Prasad rakva 0.004 Anil kumar s/o Kedarnath Gupta Taluk. Pichor rakva 0.007 Vanaso w/o Sitaram rakva 0.009 Sunita w/o amar singh Mongia rakva 0.009 Bhagwan Das s/o Guvindi Niwasi Datia rakva 0.016 Bhuswa
				531/2mese	Private	Non Irrigated	0.028	Shyam Babu s/o Panna Mongia Niwasi village Bhuswa rakva 0.111 Rambabu naba s/o va sir Hari ram cast yadav Niwasi 0.017 Lamaycha rakva 0.006 Ganga ram s/o Chaturbhuj rakva 0.017 Gorishanker Dharmendra Mahendra s/o Kishori lai verma Niwasi Taliya Mohalla Rakva 0.014 hect. Niwasi village Bhuswa
				531/2 mese	Private	Non Irrigated	0.009	Ramesh chandra Suresh chandra s/o Asha Ram Kumhar Niwasi village Bhuswa.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				531/2 mese	Private	Non Irrigated	0.023	Bahadur s/o Panna part 0.185 Har kunvar w/o Keshav das Koli Niwasi police line rakva 0.009 Sunil s/o Parmanand Yadav rakva 0.011 Smt. Kishori Devi w/o Ratiram Ram singh va Santosh mukesh naba Ratiram sir Ma. Kishori rakva 0.017 niwasi fulra Surendra kumar S/o Prem narayan Ahirwar rakva 0.017 Niwasi Moth (U.P.) Bhuswa
				531/1 mese	Private	Non Irrigated	0.027	Ram prakash s/o Rajaram Devkinandan s/o Sunderlal niwasi Dursada Bhuswa
				531/1 mese	Private	Non Irrigated	0.010	Ravi kumar s/o Ram Kumar Goswami Niwasi Raj ghat rakva 0.121 Chunna Khan s/o Khairati khan rakva 0.016 Niwasi villlage Om Prakash s/o Satole sen 0.011 Bhuswa.
				531/1 mese	Private	Non Irrigated	0.010	Ashok kumar s/o L.R. Tonk Railway station Datia Bhuswa
				526	Private	Non Irrigated	0.118	Ram Swaroop s/o Kishun lal village Bhuswa
				520/655	Private	Non Irrigated	0.178	Bhagwan das s/o Panna 0.025 Johar singh s/o Chandan singh 0.007 Nirbhay singh s/o Sugar singh rakva 0.567 Niwasi village Bhuswa
				520/1	Private	Non Irrigated	0.078	Umrao s/o Gyasi rakva 0.028 Suresh kumar s/o Keemat ram rakva 0.162 Niwasi village Bhuswa
				519	Private	Non Irrigated	0.052	Umrao s/o Gyasi 0.026 Mulabai w/o umrao 0.135 Babulal s/o Prem narayan Abhishek s/o Ramesh chandra Satish s/o Ram ji lal Srivastava Smt. Rekha w/o Manendra Litoria bhag saman rakva 0.082 Niwasi Datia Bhuswa
				500	Private	Non Irrigated	0.022	Umrao s/o Gyasi 0.795 Kartar singh s/o Moti Mongia rakva 0.005 Mansingh s/o Kalyan singh Mongia najid rakva 0.005 Suraj s/o Chandan Singh Mongia rakva 0.005 vijay singh s/o vrinda singh rakva 0.008 Niwasi village Bhuswa
				499 min 1	Private	Non Irrigated	0.060	Karan singh Gulab singh Mohan singh Naval singh Himmat singh amar singh Mahendra singh Khajni singh s/o Pratap singh Tulsa bai w/o late Pratap singh Niwasi village Bhuswa
				497	Private	Non Irrigated	0.012	Mu. Munia w/o late Ganpat 1/2 Rakesh naba s/o Patua sir Ma. Jamuna devi part 1/2 Niwasi village Bhuswa
				490 491/1	Private Private	Non Irrigated Non Irrigated	0.254 0.090	Kishori Gillo Bihari s/o Patuan part 3/5 Kamta s/o Gopal part 1/5 Mool chandra Ram Swarup s/o Ram Prasad bhunia w/o late Ram prasad Summa Ladh kunvar rati D/O Ram prasad Bhag saman 6/35 Jeetendra s/o Man singh preety naba d/o man singh sir Bhai Jeetendra Bhag saman 1/35 Niwasi village Bhuswa
				419 mese	Private	Non Irrigated	0.161	Usha devi w/o Vigha ram rakva 0.147 Moti Devi w/o Prakash chandra rakva 0.018 Archna w/o Denesh rai rakva 0.013 Heera lal s/o Radha charan soni Niwasi Housingh Board Datia rakva 0.022 Ravi kumar s/o Ramsiya Jagteria rakva 0.011 Niwasi village Bhuswa
				419 mese	Private	Non Irrigated	0.039	Hemant kumar s/o Bhigha ram Niwasi village Bhuswa
				419 mese	Private	Non Irrigated	0.007	Yasvant singh s/o Amar singh Smt. Girja w/o Yasvant singh Niwasi village Bhuswa
				368/2 380/2	Private Private	Irrigated Irrigated	0.020	Prashant kumar s/o Pyarelal vaisth Niwasi village Bhuswa
				371 380/3	Private Private	Irrigated Irrigated	0.020	
				372/2 380 min 4	Private Private	Irrigated Irrigated	0.015	
				372/1 380/min 4	Private Private	Irrigated Irrigated	0.015	
				380/5	Private	Irrigated	0.050	Prashant kumar s/o Pyarelal Vashisth Niwasi village Bhuswa
				232/672/2	Private	Non Irrigated	0.040	Bahadur s/o Panna mongia Niwasi village Bhuswa
				487/1	Private	Non Irrigated	0.060	Hemant kumar s/o Bhigha ram sindhi Niwasi village Bhuswa
			(7) Datia	3131	Private	Non Irrigated	0.200	Ram dayal Gyasi, Sunna, Munna, s/o Dolat singh east Kachi Niwasi village Bhuswa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3093 3094	Private Private	Non Irrigated Non Irrigated	0.104 0.090	Hari ram s/o Umrao Ganga D/o Umrao cast Kachi part 0.008 Rajendra prasad kaviju S/o Kishori sharan Kaum Brahman part 0.635 Ram Dayal , Gyasi, susnnu, munnna s/o Dolat singh part 1/2 caste Kachi Niwasi village Bhuswa
				3104	Private	Non Irrigated	0.092	Mu. Gayatri w/o late Dwarke Prasad Sandhya Geeta D/o Dwarka Prasad part 3/16 Dev rishi Naba s/o Manoj Kumar sir Ma. Mu. Puspa w/o late manoj kumar part 1/16 jadish Prasad s/o Lakshmi narayan Mu. Makhan w/o late Lakshmi Narayan Sharda d/o Lakshmi narayan part same 3/4 Niwasi village Bhuswa
				3105 3109/3	Private Private	Non Irrigated Non Irrigated	0.006 0.272	Smt. Kamla devi w/o Kanhaiya lal Niwasi village Bhuswa
				3109/2	Private	Non Irrigated	0.008	Kamla devi Kanhaiya lal part 0.024 sarju s/o rammu part 0.025 Niwasi village Bhuswa
				3120/2/1 3120/2/2	Private	Non Irrigated	0.182	Krishna gopal s/o Om prakash Srivastava Niwasi village Bhuswa
				3119/1	Private	Non Irrigated	0.033	Ramendra singh s/o mathura singh kaum Thakur Niwasi Baispura Bhuswa
				3119/2	Private	Non Irrigated	0.032	Devsingh munna Nandu Heera lal s/o Feli Niwasi village Bhuswa
				2/2/3118	Private	Non Irrigated	0.110	Naina naba D/o Jaideep singh bundela Niwasi village Bhuswa
				3180/2	Private	Irrigated	0.200	Ramprakash s/o Ramkishun Niwasi village Bhuswa
				1294/1	Private	Irrigated	0.128	Durga prasad s/o Ramsewak Niwasi village Bhuswa
				3182 min 2 3182 min 1	Private Private	Irrigated Irrigated	0.084	Mukesh kumar s/o Naval kishore 1/2 Manish kumar s/o Mukesh kumar vansal Sujeet kumar s/o phool chandra Niwasi village Prafful kumar s/o mukesh kumar Dharmendra kumar s/o mukesh niwasi village bhuswa
				3184 3185	Private Private	Irrigated Irrigated	0.116	
				1823/1	Private	Non Irrigated	0.040	Mool chandra Babu lai Hardas s/o Khusali ram Harko Rampa Goma d/o Khusali ram Bhag saman 6/8 Uttam singh Kailas chandra s/o Makhan lal Bhag saman 1/8 Hakim singh Omprakash s/o Hargovind Morena wali w/o Hargovind part 1/8 cast kirar niwasi village bhuswa
				1889/1	Private	Non Irrigated	0.016	Saru naba. d/o Harish chandra mishra sir Ma. Santoshi w/o Harish chandra niwasi village bhuswa
				1889/2	Private	Non Irrigated	0.016	Radha naba. d/o Haris chandra mishra sir Ma. Santoshi w/o Harish chandra Mishra niwasi village bhuswa
				1889/3	Private	Non Irrigated	0.016	Smt. Santoshi w/o Harish chandra Mishra niwasi village bhuswa
				1889/4	Private	Non Irrigated	0.016	Sanjay kumar s/o Shyam bihari Mishra niwasi village bhuswa
				1889/5	Private	Non Irrigated	0.016	Ragvendra s/o Ram babu mishra niwasi village bhuswa
				2739/1	Private	Irrigated	0.160	Keshav prasad s/o Vanmali kaum Brahman niwasi village bhuswa
				2190/1	Private	Non Irrigated	0.358	Mandir Shri baksi ju Hanumaan ji Maharaj manager collector Mahodaya Datia
				2221/1/1 ka	Private	Non Irrigated	0.070	Ram chandra s/o Chaina mal Rakesh kumar s/o Bakshamal sindhi niwasi village bhuswa
				2221/1/2 min 1	Private	Non Irrigated	0.200	Janki Radheshyam s/o bachai Mu. Bhoori w/o Bachai kaum kachhi niwasi village bhuswa
				2221/1/2 A min 9	Private	Non Irrigated	0.024	Shyam Lal Golani s/o Arjun das Golani niwasi village bhuswa
				2221/1/2 A min 10	Private	Non Irrigated	0.020	Abdul Kadir s/o Samsher Khan caur. Muslim niwasi village bhuswa
				2221/2/4	Private	Non Irrigated	0.022	Krishna pal singh s/o Jagdish singh niwasi village bhuswa
				2221/2/2	Private	Non Irrigated	0.022	Dr. Madan swaroop s/o Shyam lal Pansari niwasi village bhuswa
				2221/2/9 min 1	Private	Non Irrigated	0.010	Smt. Sangeeta w/o Ravindra kumar Sunderrani niwasi village bhuswa
				2221/2/6 min 1	Private	Non Irrigated	0.060	Mu. Samim w/o Tajuddin Moharomad Riaz s/o Mohammad Hasim part 1/2 Aslam, Aspak s/o Abdul Jaleel Kidwai part 1/2 niwasi village bhuswa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2221/2/6 min 2	Private	Non Irrigated	0.025	Manohar lal s/o Gaganmal pushpa devi w/o Manohar lal Cast sindhi niwasi village bhuswa
				2221/2/10 min 1	Private	Non Irrigated	0.012	Ballu s/o Bhajan lal sahu, Niwasi village bhuswa
				2221/2/12	Private	Non Irrigated	0.020	Shri Ram rawat s/o Ram gopal rawat niwasi village bhuswa
				2221/2/11	Private	Non Irrigated	0.020	Santosh kumar s/o Mool chandra niwasi village bhuswa
				2221/2/10 min 1	Private	Non Irrigated	0.019	Smt. Rajkumari w/o Hemant Gyanani niwasi village bhuswa
				2221/2/9 min 2	Private	Non Irrigated	0.040	Lakhsman s/o Rajaram Sahebani niwasi village bhuswa
				2221/2/13 min 1 ka	Private	Non Irrigated	0.030	Rakesh s/o Kanhaiya lal niwasi village bhuswa
				2221/2/5	Private	Non Irrigated	0.060	Ravindra Kumar s/o Kanhaiya Lal Niwasi village Bhuswa
				2219/2/1 kh-2	Private	Non Irrigated	0.020	Hemant s/o Meerchandra Gyanani Sindhi niwasi village bhuswa
				2219/2/1 ga-1	Private	Non Irrigated	0.020	Jairam Das s/o Gedimal niwasi village bhuswa
				2219/2/1 ka min kh	Private	Non Irrigated	0.020	Smt. Ram dulari w/o Shri Niwas Gupta niwasi village bhuswa
				2219/2/1 ka Min -1 ch	Private	Non Irrigated	0.030	Smt. Sheela w/o Mahesh chandra niwasi village Maithli sharan s/o Har dayal chaobe niwasi bahrooka Hari narayan s/o Virmdavan sen niwasi village bhuswa
				2219/2/1 ka min 1 ka	Private	Non Irrigated	0.150	Mangal singh, Ramababu s/o Shetal prasad Savitri, Sheela, Ramkumari, rajkumari d/o Sheetal prasad Mu. Savitri widow Sheetal prasad niwasi village bhuswa
				2219/3/1 ka-1	Private	Non Irrigated	0.017	Om Prakash Tilwani s/o Vidhram Tilwani Niwasi village Bhuswa
				2219/3/1 ka-3	Private	Non Irrigated	0.019	Ashok kumar Krishna Chandra niwasi village bhuswa
				2219/3/1 ka-2 2219/3/1 ka -4	Private	Non Irrigated	0.019 0.025	Nanak ram s/o Kishan chandra niwasi village bhuswa
				2219/3/1 ka-9	Private	Non Irrigated	0.018	Suresh kumar s/o Kishan chandra Balwani niwasi village bhuswa
				3124/1	Private	Non Irrigated	0.012	Rajendra prasad S/o Shiroman singh Bundela niwasi village bhuswa
				3124/2	Private	Non Irrigated	0.012	Sarju s/o Rammu cast kachhi niwasi village bhuswa
				1816	Private	Non Irrigated	0.128	Mandir Govind ji Bade Aehatmam Govind lal s/o Vanmari lal kaum Brahman Manager Collector Datia
				2191/1	Private	Non Irrigated	0.210	Mandir Shri baksi ju Hanumaan ji Maharaj manager collector Mahodaya Datia
				2230/2/ min 2	Private	Non Irrigated	0.008	Usha devi w/o Jaikaran singh koam Dangi rakva 0.018 Veer Bahadur singh s/o Ram Swaroop Dangi smt. Asha w/o Vijay Bhasker rakva part 0.006 niwasi village bhuswa
				2230/2/ min - 3	Private	Non Irrigated	0.010	Swami sharan s/o Bhagwan das niwasi village bhuswa
				2187/17/1 1 min 1 ka	Private	Non Irrigated	0.280	Manoj kumar s/o Shri niwas koam Brahman niwasi village bhuswa
				2187/13	Private	Non Irrigated	0.160	M.K. Assoct. Prop. Gurumukh das Tulasni s/o Mangat ram tulsani part 0.739 Dr. Santosh kumar Santpal s/o Chandu Santpal and Govind Prasad Kamra part 0.070 niwasi village bhuswa
				2187/16/1 2/1/2187	private private	Non Irrigated Non Irrigated	0.280 0.320	Khalak s/o Gokal Kachi niwasi village bhuswa Gaibu s/o vinde 1/2 sewak, Matole, Mohan lal Paras ram, Raju s/o Kishori part 1/2 cast kachhi niwasi village bhuswa
				2187/3/1 min 2	private	Non Irrigated	0.020	Dinesh kumar s/o Santumal Kaom Sindhi niwasi village bhuswa
				2187/3/1 min 4	private	Non Irrigated	0.020	Smt. Hooma devi w/o Deepchand niwasi village bhuswa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2187/3/1 min 1	private	Non Irrigated	0.110	Rajkumar s/o Jeevatram rakva 0.020 aare Hariram s/o Jeevatram rakva 0.020 aare Harish kumar s/o Jumman Talreja part 0.020 aare premko s/o Bhagchandra part 0.020 aare Amar Grah Nirman Sahkari samiti president Prabhudayal s/o Bherumal sindhi rakva 0.030 niwasi village bhuswa
				2763/1 min 1	private	Non Irrigated	0.160	Mahesh kumar, Krishnakumar s/o Umacharan Koam Brahman niwasi village bhuswa
		(8)Govindpur	741	private	Irrigated	0.130		Bajinath s/o Dhanua cast Kachhi niwasi village bhuswa
			742	private		0.190		
			783	private	Irrigated	0.060		Chatura s/o Durag cast Kachhi niwasi Datia bhuswa
			784	private		0.090		
			802	private	Irrigated	0.050		Rajendra singh s/o Shiroman singh Bundela niwasi Datia bhuswa
			803	private		0.090		
			892/2	private	Irrigated	0.050		Janaki Mansingh Harisingh S/o Kallu cast Kachhi niwasi Datia Bhuswa
			893/2	private	Irrigated	0.040		Janki s/o Kallu cast Kachhi niwasi Datia bhuswa
			893/3	private	Irrigated	0.040		Mansingh s/o Kallu cast Kachhi niwasi Datia bhuswa
			895	private	Irrigated	0.100		Kashiram Lakhsman sitaram s/o Damru sumbhag cast Kachhi niwasi Datia bhuswa
			927	private	Irrigated	0.170		
			928	private	Irrigated	0.100		
			928	private	Non Irrigated	0.040		Vishun s/o Karanju cast Kachhi niwasi Datia bhuswa
			931	private	Irrigated	0.140		
			933	private	Irrigated	0.060		Subhash chandra s/o prakash chandra Vaishya niwasi Datia bhuswa
			947	private	Irrigated	0.140		Kishori widow/o Lalaram Pista d/o Lalaram Kanhaiya s/o Lalaram 1/2 Sitaram s/o Bhagirathi cast kachhi part 1/2 niwasi village bhuswa
			948	private	Irrigated	0.150		
			949	private	Irrigated	0.070		Amarju lal Ram ratan Hargovind s/o Bachchi lal sumbhagh Kachhi niwasi Datia bhuswa, Aneeta widow/o Parasram
			949	private	Non Irrigated	0.040		Bhupendra s/o Parasram savitri ramdevi, munni, prem d/o Bhavani shanker Murti widow of Balwani Shankar part rakva 0.82 chela ram balwani s/o Ram Chandra Balwani Caste Sindhi rakva 0.16 Gajendra singh s/o Mathura singh kushwaha niwasi P.W.D. colony Thahdi sadak Datia rakva 0.64 Bhuswa.
			989	private	Non Irrigated	0.090		
			990	private	Irrigated	0.040		Mithla d/o Gajju cast Kachhi niwasi Datia bhuswa
			992	private	Non Irrigated	0.010		Khumano w/o Babulal cast Kachhi niwasi Datia bhuswa
			1058/1	private	Non Irrigated	0.260		Ku. Nidhi d/o A.K. Gupta cast Vaisya niwasi Dhamtalpura Datia part 1/3 Manchar lal s/o Gaogandas cast sindhi Gadikhana Datia part 1/3 Ghanshyam s/o parasram cast sindhi - pakoria Mahadev hardua wali gali Datia part 1/3 niwasi village bhuswa
			1058/3	private	Non Irrigated	0.190		Archna w/o Rajkumar Vaishya niwasi BadaoniKhurd village bhuswa
			1064	private	Non Irrigated	0.200		Ram swaroop s/o Sohan lal part 1/2 Kannu lal s/o Ram swaroop part 1/2 Vaishya niwasi Datia bhuswa
			1065	private	Non Irrigated	0.080		Ajay kumar Budha prakash Vaishya niwasi Datia bhuswa
			1066	private	Non Irrigated	0.050		Phoolchandra Badri prasad s/o Ratan lal sumbhag cast vaishya niwasi Datia bhuswa
			1067	private	Non Irrigated	0.242		Phool chandra s/o ratan lal vaishya niwasi Datia part rakva 0.51 Prashant s/o Chailaram Balwani cast sindhi niwasi Datia part 0.04 Shri Krishna s/o Radheshyam Vaishya part rakva 0.46 Pratap rai s/o Bherumal sindhi part rakva 0.08 niwasi Datia bhuswa
			1077	private	Non Irrigated	0.120		Rajendra kumar urf Rajiv kumar s/o Radheshyam part 1/5 Kiran widow/o Ram bharose Akash s/o Ram bharose Vaishya part 1/5 Maniram s/o Sitaram part 1/5 phool chandra prakash chandra s/o Ratan lal part 2/5 vaishya niwasi Datia bhuswa
			1075	private	Non Irrigated	0.030		
			893/1	private	Non Irrigated	0.020		Janki man singh hari singh s/o Kallu cast kachhi niwasi Datia bhuswa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1068	private	Non Irrigated	0.020	Phool chandra Badri prasad s/o Ratan lal sum bhag cast Vaishya niwasi Datia bhuswa
				1066/1082	private	Non Irrigated	0.040	Prabhu dayal s/o Babulal Suresh kumar s/o Asharam Keshev kumar s/o Chetram Ahirwar niwasi village bhuswa
		(9)Vijaypur		2	private	Irrigated	0.020	Indrapal singh Surendrapal singh s/o Jahar singh Yadav niwasi Jhansi U.P. same Bhuswa
				46	private	Irrigated	0.030	Jamuna Santosh s/o Lalaram part 2/3 kachhi Rakesh kumar s/o Kanhaiya lal cast sindhi 1/3 niwasi Datia bhuswa
				47	private	Irrigated	0.020	
				48	private	Irrigated	0.030	
				52	private	Irrigated	0.060	Narayan s/o Govind das part 1/6 Jagdish Om prakash Kalka prasad Atar singh s/o Ballu Sagun Guddi Phoolwati d/o Ballu 1/6 sum bhag Raghunandan Kishori s/o Gaya prasad part 1/3 same Dwarka man singh Rameshwer s/o Lakshmi prasad Sakhi d/o Lakshmi Prasad part 1/3 same cast Ghosi niwasi richhari bhuswa
				53	private	Irrigated	0.060	
				54	private	Irrigated	0.060	
				79	private	Irrigated	0.040	Rati ram s/o Dhannu rakva 0.44 cast Baghla Shubham minor son & sir. Ram prakash s/o Ballu rakva 0.40 Dwarka prasad s/o Lakshmi narayan rakva 0.43 cast yadav niwasi richhari bhuswa
				80	private	Irrigated	0.040	
				81	private	Irrigated	0.080	Jhagdu s/o Gunde cast Gadariya niwasi richhari bhuswa
				82	private	Irrigated	0.110	Vijay ram Patiram Amar singh s/o Kevelia Kapoori d/o Kevelila Kanchan widow/o kevelia same cast Gaderia niwasi richhari bhuswa
				83	private	Irrigated	0.060	Shambhudayal Prabhu dayal s/o Kishori cast yadav niwasi richhari bhuswa
				84	private	Irrigated	0.090	Gopul s/o Raghuvver part 1/2 Rajesh kumar s/o Ramprakash 1/2 cast yadav niwasi richhari bhuswa
				85	private	Irrigated	0.200	Rakesh Madan ba. Babu naba. s/o Suresh chandra sir. Ma. Vimla Devi w/o Suresh chandra Nai same niwasi Datia bhuswa
				88	private	Irrigated	0.150	
				128/1	private	Irrigated	0.020	Atar singh s/o Lakhsman das cast kachhi niwasi village bhuswa
				128/2	private	Irrigated	0.010	Suman w/o Ashok Gautam niwasi village bhuswa
				128/3	private	Irrigated	0.020	Ramkumari w/o Brijkishor Dubey niwasi sersa bhuswa
				128/4	private	Irrigated	0.070	Krishna w/o Ganesh ram Tiwari niwasi Dantre ki nariya Datia Bhuswa.
				129	private	Non Irrigated	0.030	Kishori s/o Ram prasad part 1/2 Atar singh Vrindvan s/o Lakhsman das part 1/2 same cast Kachhi niwasi village bhuswa
				130/1	private	Irrigated	0.010	Atar singh s/o Lakhsman das cast kachhi niwasi bhuswa
				130/2	private	Irrigated	0.150	Kishori s/o Ram prasad niwasi village bhuswa
				200	private	Irrigated	0.020	
				132	private	Irrigated	0.120	Govinid singh Mahesh Jeevan naba. s/o Kishori sir. Ma. Ramwati 1/3 Harprasad Sitaram s/o Mannu part 2/3 cast Kachhi niwasi village bhuswa
				207/1	private	Irrigated	0.010	Bhagwan das Ram lal s/o Gulia Kachhi Niwasi village Bhuswa
				207/3	private	Irrigated	0.030	Meharban s/o Parvat Kachhi Niwasi village Bhuswa
				209	private	Irrigated	0.090	Sarju s/o Chote lal part 1/4 Balua Parvat s/o Nanna 1/4 Bihari lal s/o Prem narayan Teja d/o Prem narayan Lalita widow/o Prem narayan part 3/64 Kailash Kashi ram Ram singh s/o vinde part 1/8 Govind das naba. s/o Prem narayan sir. Ma. Part 5/64 Karan singh Khuman Lala ram s/o Sarju part 1/4 sum cast Kachhi Niwasi murera Bhuswa
				210	private	Irrigated	0.070	
				131	private	Irrigated	0.150	Dhan singh s/o Sabdal cast Kachhi Niwasi village Bhuswa
				204	private	Irrigated	0.030	
				214	private	Irrigated	0.100	Chetna Mohnani w/o Ram chandra Mohnani Sindhi Niwasi Datia Bhuswa
				217	private	Irrigated	0.140	Rakesh kumar s/o Kanhaiya lal Sundrani niwasi Gurunank colony Datia Bhuswa
				218	private	Irrigated	0.010	
				220	private	Irrigated	0.040	Kamta s/o Chhuttu cast Chamar Niwasi village Bhuswa
				199/1	private	Irrigated	0.020	Vridavan s/o Lakhsman das Kachhi Niwasi village Bhuswa
				199/3	private	Irrigated	0.020	Atar singh s/o Lakhsman das kachhi niwasi villlage bhuswa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(10)Richhari	2	private	Non Irrigated	0.120	Vinod Kumar s/o Ram swaroop Vaishya Niwasi Datia Bhuswa
				4	private	Non Irrigated	0.070	
				3	private	Irrigated	0.030	Pritam Badam s/o Gunne Pana Kastoori d/o Gunne Ghosi Niwasi villlage bhuswa
				155	private	Irrigated	0.080	
				51	private	Non Irrigated	0.092	Lal singh s/o Channi cast Ghosi niwasi villlage bhuswa
				52	private	Non Irrigated	0.070	
				50	private	Irrigated	0.140	Rajaram s/o Vijay singh part 1/4 Mangal singh Kishori s/o Chunni part 1/2 Same Dev singh Pyarelal s/o Ram singh Wati ram bai d/o Ram singh part 1/4 same Ghosi niwasi villlage bhuswa
				54	private	Irrigated	0.100	
				55	private	Irrigated	0.130	
				65	private	Irrigated	0.060	
				82	private	Irrigated	0.080	Dwarka Maan singh Rameshwer s/o Lakshmi prasad Sakhi d/o Lakshmi prasad mu. Mathura widow/o Lakshmi prasad cast ghosi niwasi villlage bhuswa
				83	private	Irrigated	0.110	Naran s/o Govind das 1/3 Jagdish Om prakash Kalka Atar singh s/o Ballu Sagun Phoolwati Guddi Meera d/o Ballu part 2/3 sum ghosi niwasi villlage bhuswa
				86	private	Irrigated	0.050	Jahan singh Simam singh Ram shanker s/o Jamuna prasad Rama bai Kusum d/o Jamuna prasad cast ghosi sam niwasi villlage bhuswa
				156	private	Irrigated	0.140	Parmanand s/o Arjun part 1/4 Mu. Aanaro widow/o Sitaram Jahan singh Ram sewak ba. Santosh Amar singh naba. s/o Sita ram sir Bahi Jahan singh 5/12 sum Bhawani ba Basanti naba. s/o Sita ram 1/12 asha ba. Geeta naba. d/o Hukum singh naba. Father self 1/4 cast ghosi sum niwasi villlage bhuswa
				153	private	Irrigated	0.040	Badam singh s/o Gunne part 1/2 Jahan singh naba. son & sir. Sitaram part 1/2 east ghosi niwasi villlage bhuswa
				154	private	Irrigated	0.030	
			(11)Ghutari	4	private	Irrigated	0.010	Kishan lal Rati ram Ramesh Aadhrum s/o Dhanu part 4/7 sum Jasia widow/o Dhanu part 1/7 Om devi widow/o Suresh Manish naba. s/o Suresh Sir. Ma. Self part 1/7 sum Nihal s/o Gulab Shanti widow/o gulab part 1/7 sum cast Gaderia niwasi richhari bhuswa
				7	private	Irrigated	0.220	Jagat singh s/o Gaya prasad cast yadav Niwasi richhari rakva 1.10 Manager Pramod Sahni s/o Jagdish Sahni Development alternatics Tara village Orchha rakva 0.04 bhuswa
				7	private	Non Irrigated	0.130	
				8	private	Non Irrigated	0.020	Pramod Sahni s/o jagdish chandra sahni manager vikas vikaip 1077 Civil line Jhansi U.P. part rakva 0.35hect.. Koak singh Janved singh Bhumer singh ba. Dhram singh naba. son & sir. Bhagwan singh cast yadav part rakva 0.02 niwasi richhari bhuswa
				10	private	Irrigated	0.120	Bhagwan singh s/o Ram charan cast yadav niwasi richhari part 91/139 Kehar singh s/o Jagat Singh part 24/139 Mu. Asha widow sobran Rahul Bhanu naba s/o sovrar sir. Ma. Self part 24/139 sum cast yadav niwasi richhari bhuswa
				11	private	Irrigated	0.120	Nattho d/o Janki w/o Madho singh cast yadav niwasi richhari bhuswa
				12	private	Irrigated	0.070	Kashiram s/o Bohra singh yadav niwasi villlage bhuswa
				18	private	Non Irrigated	0.120	Prashant s/o Chaila ram cast sindhi niwasi opp.state bank Datia bhuswa
			(12)Sitapur	124	private	Irrigated	0.310	Lakshmi narayan Mannu Ram kishun Hargovind Vanmali Charan singh rakesh s/o Dev singh part 5.18/5.33 Ram kali Kunvar d/o Dev singh part 0.15/5.33 cast kachhi niwasi villlage uprayan bhuswa
				132	private	Irrigated	0.200	
				122	private	Irrigated	0.450	Raghuvar s/o Dayaram 1/2 devi s/o Dayaram 1/2 cast kachhi niwasi villlage uprayan bhuswa
				123	private	Irrigated	0.360	
				225	private	Irrigated	0.140	Udayveer singh s/o Ram sewak Indraz singh s/o Thakurdas cast Kamaria niwasi paarasari bhuswa
				226	private	Irrigated	0.040	
				134	private	Non Irrigated	0.030	Naran s/o Bhujju east yadav part 0.06 niwasi villlage bhuswa Kaveri Anand w/o Mahesh anand rakva 0.94 cast Khatri niwasi Dabra

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				135	private	Irrigated	0.110	Amar singh Ishwar singh s/o Dayaram cast yadav bhag saman niwasi village bhuswa
				136	private	Irrigated	0.090	Amar singh s/o Dayaram cast yadav niwasi village bhuswa
				291	private	Irrigated	0.010	Shiv kumar s/o Radhacharn cast Vaishya niwasi village bhuswa
				523	private	Irrigated	0.030	Mulayam singh Nathuram Uday singh s/o Ram das bhag saman cast yadav niwasi village bhuswa
				524	private	Irrigated	0.090	
				527	private	Irrigated	0.170	
				526	private	Irrigated	0.120	Budha singh karan singh s/o Ghanshyam mu. Rajabeti widow/o Ghanshyam cast yadav niwasi village bhuswa
				529	private	Irrigated	0.170	
				1061	private	Irrigated	0.160	
				1062	private	Irrigated	0.100	
				1071	private	Irrigated	0.230	
				530	private	Irrigated	0.250	Jagdish sharan s/o Babu lal cast Brahman niwasi village bhuswa
				1060	private	Irrigated	0.330	Ram swaroop s/o Chintaman Brahman niwasi village Bhuswa
				1069	private	Irrigated	0.320	
				1050	private	Irrigated	0.030	Nathuram s/o ramdeen Bagla niwasi village bhuswa
				1051	private	Irrigated	0.090	Bhaiyalal s/o Ramnath 1/4 Sudha devi w/o Radhelal 0.07/0.60 part Vimla devi w/o Ramesh chandra 0.07/0.60 part Shiv kumar s/o Narayandas mu. Kalawati widow/o Narayan das 1/4 part cast brahman Om prakash s/o Ram das cast Kayastha 0.16/0.60 part niwasi village bhuswa
				1052	private	Irrigated	0.680	Bhaiya lal s/o Ramnath 1/4 Sudha devi w/o radhelal 1/4 Vimla devi w/o Ramesh chandra 1/4 Shiv kumar s/o Narayan das mu. Kalawati widow/o narayan das 1/4 cast brahman niwasi village bhuswa
				1040	private	Irrigated	0.020	Om Prakash s/o Ram das Kayastha niwasi village bhuswa
				1039	private	Irrigated	0.100	Shiv kumar s/o Narayan das mu. Kalawati widow/o narayan das 0.08/0.23 part Bhaiya lal s/o Ramnath 0.08/0.23 part cast brahman Om prakash s/o Ram das cast kayastha 0.07/0.23 niwasi village bhuswa
				1038	private	Irrigated	0.040	Shiya Sharan s/o Ramdas Kayastha niwasi village bhuswa
				1016	private	Irrigated	0.140	Ram swaroop s/o Heeralal cast kayastha niwasi village bhuswa
				1020	private	Irrigated	0.080	
				1012	private	Irrigated	0.020	Rameshwer s/o Lachhu Kansa w/o Lachhu Chote lal Ballu s/o Lachhu Kamla Girija Vimla Mahadevi d/o Lachhu 8/9 va Asha d/o Santosh 1/9 cast rai niwasi village bhuswa
				1018	private	Irrigated	0.020	
				1019	private	Irrigated	0.020	
				1006	private	Non Irrigated	0.220	Gajua s/o Gyasi 1/3 Naran Natha Ramsewak s/o Mille Kamla Jamuna d/o Mille va Bunty Arvind naba. s/o Kailash Mu. Pukhanwidow Kailash sir. Ma. Self 1/3 part Atar singh Munna ba. Pappu naba. s/o Birja sir ma. Panku widow/o Birja Mithla Mohania Khilla Bitan d/o Birja Narani widow/o Nagpuri Nand kishore chote lal naba Nagpuri sir. Ma. self Phoolwati Rajni d/o Nagpuri sum part 2/3 cast Dheemer niwasi village bhuswa
				980	private	Irrigated	0.090	Deen dayal Bhudha prakash Mansa ram s/o Nathu Mu. Thakuria widow/o Nathu bhag sum cast Jatav niwasi village bhuswa
				981	private	Irrigated	0.240	
				982	private	Irrigated	0.240	
				983	private	Irrigated	0.270	
				977	private	Irrigated	0.010	
				989	private	Irrigated	0.010	Guru Pratap singh Harpratap singh Sant pratap singh s/o Harbhajan singh cast punjabi bhag saman niwasi village bhuswa
				1001	private	Irrigated	0.530	
				1002	private	Irrigated	0.200	
				1003	private	Irrigated	0.030	
				1049	private	Irrigated	0.010	Sudha devi w/o Radelal Vimla devi w/o Ramesh chandra Brahman niwasi village bhuswa
				1522	private	Irrigated	0.120	Smt. Sheelwati w/o Ramchandra cast Brahman niwasi village bhuswa
				1072	private	Irrigated	0.030	Shiya Sharan Kalyan singh s/o Govind das cast yadav niwasi village bhuswa
				1036	private	Irrigated	0.040	Mukut singh s/o Ratan singh Dangi aiwasi village bhuswa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1520	private	Irrigated	0.060	Mahesh prasad Mahendra singh s/o Sunderlal cast Jatav niwasi village bhuswa
				958	private	Irrigated	0.010	Dinesh kumar s/o Prabhu dayal va Prabhu dayal s/o Heera lai cast Brahman bhag saman niwasi village murera bhuswa
				959	private	Irrigated	0.060	
				960	private	Irrigated	0.330	
				967	private	Irrigated	0.290	Shamti kalra 1/4 Ankit Kalra 3/4 s/o Suresh Kalra niwasi Datia cast punjabi bhuswa
				968	private	Irrigated	0.100	
				972	private	Irrigated	0.050	
				974	private	Irrigated	0.240	
				975	private	Irrigated	0.200	Usha w/o Mahesh kumar Malhotra niwasi Datia bhuswa
				979	private	Irrigated	0.110	Summera s/o Tulsi 1/3 Raju s/o Raghuv eer Kailashi Suneeta Aneta Manisha d/o Raghuv eer Mu. Ram kunvar widow/o Raghuv eer 2/3 Cast Jatav niwasi village bhuswa
				1017	private	Irrigated	0.020	Summera s/o Tulsi 1/12 part Raju s/o Raghuv eer Kailashi Suneeta Aneta Manisha d/o Raghuv eer Mu. Ram kunvar widow/o Raghuv eer 1/6 part Harcharan s/o Maharaj singh part 1/8 Bhagoni s/o Tijua part 1/6 Mulula S/o Gabu part 1/6 Teja w/o Surjan lakhani Ram ji s/o Surjan kesar d/o Surjan part 1/8 Cast Jatav niwasi village bhuswa
				1041	private	Irrigated	0.010	Rajaram s/o Sultan singh 4/9 Pradeep kumar s/o Ram singh 4/9 Ramsingh s/o Aman singh 1/9 part cast dangi niwasi village bhuswa
				1015	private	Irrigated	0.110	Rajaram s/o Sultan singh, Ram kumar s/o Ramsingh bhag saman cast dangi niwasi village bhuswa
				220	private	Irrigated	0.010	Udayveer singh s/o Ram sewak Indraz singh s/o Thakurdas cast Kamaria niwasi paarasari bhuswa
				221	private		0.050	
				290	private	Irrigated	0.040	Majboot singh s/o Anant singh cast yadav niwasi village bhuswa
				1531	private	Irrigated	0.050	Smt. Sheelwati w/o Ram chandra cast Brahman niwasi village bhuswa
				990	private	Non Irrigated	0.040	Guru Pratap Singh Harpratap singh Sant pratap singh s/o Harbhajan singh bhag sum cast punjabi niwasi village bhuswa
				949	private	wet	0.020	Jameel kha s/o Najab Kha cast Muslim niwasi village bhuswa
				976	private	Non Irrigated	0.020	Smt. Chandra kumari w/o Devi singh Thakur niwasi Datia bhuswa
				1519	private	Non Irrigated	0.030	Haridas Ganeshi s/o Ramdeen part sum bhag Jatav niwasi village bhuswa
				986	private	Irrigated	0.630	Sumera s/o Tulsi 1/3 Raju s/o Raghuv eer Kailashi Suneeta Anita Manisha d/o Raghuv eer Mu. Ram kunvar widow/o Raghuv eer 2/3 cast Jatav niwasi village bhuswa
				1056	private	Irrigated	0.400	Bhaiya lai s/o Ramnath 1/4 Sudha devi w/o Radhelal 1/4 vimla devi w/o Ramesh chandra 1/4 Shiv kumar s/o Narayan das Mu. Kalawati widow Narayan das 1/4 cast Brahman niwasi village bhuswa
		(13)Dabrabag		276/2	private	Irrigated	0.010	Manoj kumar s/o Janki prasad Dangni niwasi village bhuswa
				276/3	private	Non Irrigated	0.090	Rammlan s/o Ghansyam cast Dangni niwasi village bhuswa
		(14)Uprat		343	private	Irrigated	0.180	Kalka prasad s/o Chotelal Durjan s/o Gukul part 2/4 Hardas s/o Dabua part 1/4 Sita ram Rakesh Bhagwat s/o Babu cast Ahirwar niwasi village bhuswa part 1/8 Mu. Ganishi widow Bachhi Prabhu Munna Janki Ramsingh Harimohan s/o Bachhi part 1/8 cast Ahirwar niwasi village bhuswa
				380	private	Irrigated	0.150	
				342	private	Irrigated	0.100	Smt. Puspa w/o Mahesh chandra Gandhi cast Vaishya niwasi Dabra bhuswa
				422	private	Non-Irrigated	0.002	Abhay s/o Badri prasad Chandak niwasi Gwalior bhuswa
				345	private	Irrigated	0.260	Sunita W/O Devendra Kumar Dixit Niwasi Gwalior bhuswa
				347	private	Irrigated	0.040	
				358	private	Irrigated	0.060	
				359	private	Irrigated	0.180	Shobharam S/O Saroo cast Dangni Niwasi Village bhuswa
				379	private	Irrigated	0.090	
				385	private	Non-irrigated	0.012	Manoj Kumar Krishn Murari Satish S/O durgaprasad cast bramhan Niwasi village bhuswa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				386 1196	private private	Non-irrigated Irrigated	0.040 0.120	Pawan kumar pankaj kumar naba. S/O budhprakash sir. Mother Meera wid/o Budhprakash part 1/3 kallu S/O Bhagirath part 1/3 Pawan kumar Pankaj kumar Naba. S/O budhprakash Pinki Naba. D/O Budhprakash Mu. Meera Wid/O Budhprakash Sir. Mother Meera part 1/3 cast bramhan Niwasi village bhuswa
				387	private	Non-irrigated	0.030	Deepak kumar S/O Budhprakash cast vaishy Niwasi Datia bhuswa
				1199	private	Irrigated	0.030	Kallu S/O Bhagirath 1/3 Prins urf Harshvardhan naba. S/O Premnarayan S/O Matadin part 2/3 Niwasi village bhuswa
				1197	private	Irrigated	0.010	Santosh kumar Ramkumar S/O Laxmi narayan bramhan Niwasi village bhuswa
				1198	private	Irrigated	0.320	Kalka prasad S/O Bhagirath bramhan Niwasi village bhuswa
				1218	private	Irrigated	0.030	Shyamsundar shardasharan S/O Ramcharan cast Dangi part 24/36 Dinesh kumar Deepak kumar S/O Sitaram part 12/36 bramhan Niwasi village bhuswa
				1219	private	Irrigated	0.380	Shyamsundar shardasharan S/O Ramcharan cast Dangi part 68/111 Dinesh kumar Deepak kumar S/O Sitaram bramhan part 43/111 Niwasi village bhuswa
				1222	private	Irrigated	0.220	Mayank kumar Mukul kumar naba. S/O Wa sir. Sharda sharan cast Dangi part 32/61 S/O Vanmali S/O Sitaram part 29/61 Niwasi village bhuswa
				1223	private	Irrigated	0.080	Krishnkant naba. S/O Shyamsundar sir. Uncle Shardasharan Mayank naba. S/O Wa sir. Shardasharan Dangi rakva 0.32 Gyaprasad S/O Tiju 0.16 Kishorisharan Nathuram Patiram S/O Tiju rakva 0.13 cast Ahirwar Niwasi village bhuswa
				1234	private	Irrigated	0.080	Shanti D/O Punna Kori Niwasi village bhuswa
				1252	private	Irrigated	0.200	Balveer S/O Sitaram pal Niwasi village bhuswa
				1251	private	Irrigated	0.290	Bhanta S/O Masalti cast chamar Niwasi village bhuswa
				1250	private	Irrigated	0.120	
				1247	private	Irrigated	0.010	
				1262	private	Irrigated	0.060	Rameshwar Shivram S/O Kashiram part 2/3 Rekha Widow/o
				1261	private	Irrigated	0.080	Shobharam Akash naba. S/O Shobharam sir. Mother Rekha
				1307	private	Irrigated	0.190	part 1/3 cast bramhan Niwasi village bhuswa
				1260	private	Irrigated	0.110	Ramshwaroop Asharam S/O Brijlal Mu. Prem Widow/O Brijlal bhag sum cast Bramhan Niwasi village bhuswa
				1249	private	Irrigated	0.010	Prakash S/O Adaku Rajpati Wid/O Adaku cast chamar Niwasi village bhuswa
				1248	private	Irrigated	0.050	Omprakash S/O Kashiram cast Kayasth Niwasi Sindhwari bhuswa
				1309	private	Irrigated	0.010	Kalka prasad S/O Khachchhu cast Kachhi Niwasi village bhuswa
				1308	private	Irrigated	0.190	Kalka prasad S/O Govinddas cast bramhan Niwasi village bhuswa
				1305	private	Irrigated	0.180	Asharam S/O Chukhar cast Kachhi Niwasi village bhuswa
				1304	private	Irrigated	0.170	Mulu S/O Chukhar cast Kachhi Niwasi village bhuswa
				1347	private	Irrigated	0.040	
				1303	private	Irrigated	0.040	Suresh S/O Soore cast Dangi Niwasi village bhuswa
				1302	private	Irrigated	0.050	Ramji sharan S/O Bhagwandas cast Dangi Niwasi village bhuswa
				1350	private	Irrigated	0.200	Lakhtanai S/O Bhagwandas cast Dangi Niwasi village bhuswa
				1405	private	Irrigated	0.090	Kailash Jagdish Rameshwar S/O Kamtaprasad Prema Wid/O
				1447	private		0.520	Kamtaprasad cast bramhan Niwasi village bhuswa
				1404	private	Irrigated	0.06	Ratto D/O Sulla Ramjanshah S/O Dangali bhag sum cast Muslim Niwasi village bhuswa
				1425	private	Irrigated	0.020	Ramshwaroop S/O Sukinandan 1/2 Ramnath S/O Vidhayadhar 1/2 bramhan Niwasi village bhuswa
				1424	private	Irrigated	0.020	Radheshyam, Mahesh, Ramprakash S/O Laxminarayan Vimala D/O Laxminarayan Niwasi village bhuswa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1423	private	Non-irrigated	0.010	Ramkali Sheela Munni Krishna Meera Anita D/O Ramcharan
				1421	private	Non-Irrigated	0.034	and Kalkaprasad Nandkishor Rajendraprasad S/O Ramcharan
				1459	private	Irrigated	0.520	cast bramhan Niwasi village bhuswa
				1458	private	Irrigated	1.000	Bhagirath S/O Dariyav cast Kachhi Niwasi village bhuswa
				1416	private	Irrigated	0.100	Sarman S/O Parvat 1/2 Kashiram Kishori Balu Ramkishan S/O
				1417	private	Irrigated	0.160	Sarman bhag sum 4/10 Kanti naba. D/O Preetam sir.
				1419	private	Irrigated	0.200	Grandfather Sarman part 1/10 cast Kachhi Niwasi village
				1422	private	Irrigated	0.060	bhuswa
				1439/1985	private	Irrigated	0.090	Suresh chand S/O Govindas bramhan Niwasi village bhuswa
				1440	private	Irrigated	0.500	Gille S/O Mangnu cast Nai Niwasi village bhuswa
				1446	private	Irrigated	0.560	Nandlal Ashok S/O Ramsevak Doli Lata Lali Usha D/O
				1442	private	Irrigated	0.030	Ramsevak cast bramhan part 1/6 Siyasharan S/o Kamtua Rani
				1348	private	Irrigated	0.010	Guddi Munni D/O Kamtua Mu. Nandrani Wid/O Kamtua
				1349	private	Irrigated	0.230	partsame 5/6 cast Badai Niwasi village bhuswa
				1359	private	Irrigated	0.050	Kalkaprasad S/O Ramcharan cast bramhan Niwasi village
				1353	private	Irrigated	0.080	bhuswa
				1352	private	Irrigated	0.010	Ramshwaroop S/O Sukhnandan cast bramhan rakva 1.64
				1356	private	Irrigated	0.030	Jagdish singh S/O Bhagirath cast Kachhi rakva 0.97 bhuswa
				1357	private	Non-irrigated	0.100	Sarman S/O Parvat 1/2 Kashiram S/O Sarman 1/2 cast Kachhi
				1358	private	Irrigated	0.090	Niwasi village bhuswa
				1369	private	Irrigated	0.050	Jagdish S/O Kamtaprasad bramhan Niwasi village bhuswa
				1259	private	Irrigated	0.030	Kalkaprasad S/O Bhagirath bramhan Niwasi village bhuswa
				1368	private	Irrigated	0.410	Ramjisharan S/O Bhagwandas cast Dangi Niwasi village
				1235/2	private	Irrigated	0.020	bhuswa
				1306	private	Non-irrigated	0.010	Lakhanlal S/O Bhagwandas cast Dangi Niwasi village bhuswa
				1456	private	Irrigated	0.080	Maithali sharan S/O Dilip cast Dangi Niwasi village bhuswa
				1455	private	Irrigated	0.090	Mu. Sheela Wid/O Radhacharan Anurag. Ankur, Ashish,
				1454	private	Irrigated	0.140	Aditya S/O Radhacharan cast vaishy Niwasi Badoni
				1449	private	Irrigated	0.080	Ramprasad S/O Ramsevak Dangi Niwasi village bhuswa
				344	private	Irrigated	0.520	Vikram singh Ranjit singh naba. S/O Radhaballabh sir.
				346	private	Irrigated	0.100	Grandfather Lakhanlal Dangi Niwasi village bhuswa
				357	private	Non-irrigated	0.010	Thakur das S/O Chukhar cast Kachhi Niwasi village bhuswa
				378	private	Irrigated	0.060	Raghnath S/O Ramsevak Dangi Niwasi village bhuswa
								Parashuram S/O Devi cast Gadhariya Niwasi village bhuswa
								Ramshwaroop Asharam S/O Brijlal Mu. Prem Wid/O Brijlal
								bhag sum cast Bramhan Niwasi village bhuswa
								Mangal singh ba. Khemraj Balli naba. S/O Briddha Mu. Rajo
								Widow/O Briddha bhag sum cast Gadhariya Niwasi village
								rakva 0.12 Patiram S/O Kanhaiyalal prajapati and Rambabu
								S/O Lakkha singh Prajapati Puranichhavani Gwalior rakva 0.68
								Ramkali W/O Shyamsundar Tiwari Darugar ki puliya Datia
								part 1/8 Deepak kumar Arvind Kumar S/O Devi Dayal Dubey
								Niwasi Chunagar Phatak Datia part 1/8 Thakur das S/O Soore
								rakva 0.09 Ladale S/O Soore rakva 0.49 cast Bagla Niwasi
								village bhuswa Asharam Ramkishor S/O Soore rakva 0.63 cast
								Bagla Niwasi village bhuswa
								Durgaprasad S/O Chunte cast Barar Niwasi village bhuswa
								Maphi Mandir Shri Shankar ji Maharaj Manager Collector
								Mahoday Jiladhish Datia
								Sunita W/O Devendra Kumar Dixit Niwasi Gwalior bhuswa
								Bhagwandas S/O Raghuni part 1/2 Shiromani singh Ramji
								sharan Mulamsingh Rammilan S/O Dhaniram Ramka D/O
								Dhaniram Mu. Makhan Widow/O Dhaniram bhag sum 1/2 cast
								Dangi Niwasi village bhuswa
								Shobharam S/O Saroo cast Dangi Niwasi Village bhuswa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				381	private	Non-irrigated	0.280	Makhan Wid/O Dhaniram Shiromani Singh Ramji Sharan, Mulam Singh Rammilan S/O Dhaniram Ramka D/O Dhaniram, 1/8 Ramesh Ramhajor Mahendra S/O Jwala Thakurdas Kamta Bhagirath S/O Ghantoo Shrilal Shiromani singh S/o Dayaram, Niwasi Sujed Rameshwar Komal S/O Sitaram mu. Avadh Wid/O Sitaram Vino D/O Nandu 1/8 Shiromani singh Ramji Sharan Mulamsingh Rammilan S/O Dhaniram part 1/8 Bhamvar singh ba. Kishori Jagdish naba. S/O Pahadsingh sir. Bhai Bhamvar singh Radhikasharan S/O Siyasharan 1/16 Kashiram S/O Mahadev singh 1/4 Ramshri Wid/O Asharam, Kalka Prasad Manish kumar S/O Asharam Sanjay Neeraj S/O Mahadev Mu. Kastoori Wid/O Mahadev cast Dangi Niwasi Village bhuswa
				382	private	Irrigated	0.060	Vishal S/O Buddhpakash cast Vaishy Niwasi Datia bhuswa
				383	private	Irrigated	0.300	Kishorisharan ba. Ramlal naba. S/O Kadhora Parvati Suman naba. D/O Kadhora Mu. Kastoori Wid/O Kadhora part 1/4 sir. Mother Kastoori Rajku Gaumati S/O Parichhat part 1/4 Kalka Prasad S/O chhotelal Mu. Hinautiya Bari Wid/O Guman part 1/8 Babu S/o Harvan 1/8 Gokaliya S/O Kunji 1/8 Hardas S/O Dabua part 1/8 cast Ahirwar Niwasi village bhuswa
				389	private	Non-irrigated	0.280	Pavan kumar Pankaj kumar naba. S/o Bhudha prakash sir. Ma.
				390	private	Irrigated	0.120	Meera widow Bhudha prakash part 1/3 Kallu s/o Bhagirath part 1/3 Pavan kumar Pankaj kumar naba s/o Bhudha prakash pinki naba. d/o Bhudha prakash Mu. Meera widow Bhudha prakash sir. Ma. Meera part 1/3 cast Brahman Niwasi village bhuswa
				391	private	Irrigated	0.150	Manoj Kumar Krishn Murari Satish kumar S/O durgaprasad bhag sum cast bramhan Niwasi village bhuswa
				392	private	Irrigated	0.220	Ajay kumar Vikas s/o Bhudha prakash cast Vaishya Niwasi village bhuswa
				412	private	Irrigated	0.300	Kalka prasad s/o Bhagi rath Brahman Niwasi village bhuswa
				1200	private	Irrigated	0.230	Ashok kumar s/o Kalka prasad cast Brahman Niwasi village bhuswa
				1201	private	Irrigated	0.030	
				1202	private	Irrigated	0.010	Balram Prem narayan s/o Matadeen cast Brahman Niwasi village bhuswa
				1217	private	Irrigated	0.200	Santosh kumar Ramkumar S/O Laxmi narayan bramhan Niwasi village bhuswa
				1215	private	Irrigated	0.030	
				1261	private	Irrigated	0.080	Rameshwar Shivram S/O Kashiram part 2/3 Rekha Widow/o Shobharam Akash naba. S/O Shobharam sir. Self part 1/3 cast bramhan Niwasi village bhuswa
				1262	private	Irrigated	0.060	
				1326	private	Irrigated	0.010	Mulu Khuman Thakurdas Asharam s/o Chukhar part 1/2 Kalka Prasad Bhagwan das s/o Khacchu part 1/2 cast kachhi Niwasi village bhuswa
				1350/ 1987	private	Irrigated	0.010	Ramji sharan S/O Bhagwand as cast Dangi Niwasi village bhuswa
				1367	private	Non-irrigated	0.050	Mafi Mandir Ramjanki ji Manager collector Mahodaya distt. Datia
				1393	private	Irrigated	0.140	Thakur das Asha ram Ladley Ram kishore s/o sure Bhagsum cast gadaeria Niwasi village bhuswa
				1216	private	Irrigated	0.040	Shyan sunder Sharda sharan s/o Ram charan part 24/36 cast Dangi Dinesh kumar Deepak kumar s/o Sitaram cast Brahman part 12/36 Niwasi village bhuswa
				1346	private	Irrigated	0.010	Shiya sharan s/o Jugal kishore cast Bhrahman Niwasi village bhuswa
			(15)Badera	568	private	Irrigated	0.070	Pratap s/o Dhare Cast lodhi Niwasi village bhuswa
				588	private	Irrigated	0.100	Smt. Meena w/o Umesh singh cast tomar Niwasi 8 No. Kothi Sarvodaya nagar Shivpuri Bhuswa
				604	private	Irrigated	0.130	
				590	private	Non-irrigated	0.010	Smt. Meena w/o Umesh singh cast tomar Niwasi 8 No. Kothi Sarvodaya nagar Shivpuri part 1/2 Jamuna S/o Nandlal 1/4 Balram s/o Jaaharsingh part 1/4 cast lodhi Niwasi village bhuswa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				589	private	Non-irrigated	0.040	Thakur das s/o Hardayal part 1/4 Govind das s/o Bal kishun part 1/4 Dhaniram. Dev prasad s/o Chhandi part 5/12 Lalaram s/o Chhandi part 1/12 cast lodhi Niwasi village bhuswa
				605	private	irrigated	0.040	Abhishek Sharma naba. s/o Ramniwas sir. Grandmother Mu.
				562	private	Non-irrigated	0.002	Bhagwati widow Ram gopal Sharma Niwasi Badonkala bhuswa
				606	private	Irrigated	0.040	Govind sharan Dinesh kumar s/o Radheshyam part 2/3 Neeraj
				607	private	Irrigated	0.040	Pankaj niwedan s/o Bhagwatsharan 1/3 cast Kayastha Niwasi
				690	private	Irrigated	0.040	Pachhokhara bhuswa
				691	private	Irrigated	0.020	
				621	private	Irrigated	0.070	Rama w/o Mansa ram cast Lodhi Niwasi village bhuswa
				622	private	Irrigated	0.070	Narayan s/o Nirpat part 1/2 Patua s/o Malthu part 1/4 munia widow/o Chinnu Jasrath, roop singh s/o Chinnu Vajjanti Pista d/o Chinnu part 1/4 cast Lodhi Niwasi village bhuswa
				677	private	Irrigated	0.030	Ajmer singh Damodar singh s/o Naval singh cast rawat Niwasi village Madhora bhuswa
				674	private	Irrigated	0.040	Dhanaram Bharat singh s/o Vanmali part 5/12 Geeta Ramkumari d/o Vanmali Bhagsum 1/12 Soni s/o Ranjeet part 1/2 cast lodhi Niwasi village bhuswa
				676	private	Irrigated	0.020	
				694	private	Irrigated	0.080	Smt. Bhagwati w/o Ramgopal Sharma Niwasi Badonkala bhuswa
				687	private	Irrigated	0.020	Govind sharan Dinesh kumar s/o Radheshyam part 2/4 Neeraj Pankaj niwedan s/o Bhagwat 1/4 cast Kayastha, Ram Dhakeli widow Kamta Shaligram Rameshwer s/o Kamta pista Imerati Urmila d/o Kamta part 1/4 cast lodhi Niwasi village bhuswa
				18	private	Non-irrigated	0.030	Omprakash S/O Sunnu cast Brahman Niwasi village bhuswa
				693	private	Irrigated	0.010	Bhagwan das s/o Ram prasad cast lodhi Niwasi village bhuswa
		(16)Baronkala		1438	private	Irrigated	0.090	Chotelal s/o Kunji cast kalar Niwasi Dabra bhuswa
				1437/2	private	Non-irrigated	0.030	Lakhsman s/o Mahendra singh jatav Niwasi village bhuswa
				1435	private	Irrigated	0.120	Nathu singh Harnaam singh s/o Meherbaan singh cast rawat niwasi Kotra
				1433	private	Irrigated	0.130	Rajesh kumar s/o Harcharan part 9/169 niwasi Badonkala Nathu singh Harnaam singh s/o Meherbaan singh sumbhag part 160/169 cast rawat Niwasi village bhuswa
				1423	private	Non-irrigated	0.012	Rajesh kumar s/o HarDayal cast Brahman Niwasi village bhuswa
				1416/1	private	Irrigated	0.020	
				1417	private	Irrigated	0.080	
				1418	private	Irrigated	0.060	
				1407	private	Irrigated	0.060	
				1701	private	Irrigated	0.110	Uttam singh Ram milan s/o Vishal singh part rakva 0.38 Jaiprakash s/o Kishun lal part rakva 0.40 cast Brahman Niwasi village bhuswa
				1702	private	Irrigated	0.040	Jai prakash s/o Kishun lal cast Brahman Niwasi village bhuswa
				1392	private	Non-irrigated	0.002	Ratiram Brijnandan Rajaram Shaligram Brijkishore Mayaram s/o Madho chiranji Rampyari Sushila Kalawati d/o Madho part 10/11 Prabha widow/o Babulal Saroj Geeta d/o Babulal Kalar part 1/11 Niwasi village bhuswa
				1394	private	Irrigated	0.020	Devprasad s/o Raksu part 3/4 Prabhu dayal Ba. Chandan singh Prathvi raj Naba. Sir. s/o Dev prasad cast lodhi part 1/4 Niwasi Badera bhuswa
				1395	private	Irrigated	0.020	Deprasad s/o Raksu cast lodhi part 0.12 Niwasi village Badera Gori shanker s/o Hardayal Brahman Niwasi village Badonkala part rakva 0.25 bhuswa
				1398	private	Irrigated	0.010	Devprasad s/o Raksu part 3/4 Prabhu dayal Ba. Chandan singh Prathvi raj Naba. Sir. s/o Dev prasad Sumbhag 1/4 Niwasi Badera bhuswa
				1399	private	Irrigated	0.030	
				1402	private	Irrigated	0.030	Devendra singh Surendra singh s/o Vichitra singh & Gullu widow Vichitra singh cast rawat Niwasi village bhuswa
				1408	private	Irrigated	0.030	
				1405	private	Irrigated	0.020	
				1697	private	Irrigated	0.040	
				1401	private	Irrigated	0.010	Devendra singh Surendra singh s/o Vichitra singh cast rawat bhagsum Niwasi village bhuswa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1386	private	Non-irrigated	0.010	Ratiram Brijnandan Shaligram Brijkishore Mayaram s/o Madho chinronji Rampyari Kalawati Sushila d/o Madho cast Kalar niwasi sumbhag 10/11 Prabha bai widow/o Babulal Saroj Geeta d/o Babulal sumbhag 1/11 cast Kalar Niwasi village bhuswa
				1387	private	Non-irrigated	0.020	Chotelal s/o Kunji cast kalar Niwasi village bhuswa
		(17)Guliyapura		205	private	Irrigated	0.040	Nandkishore s/o Ramcharan cast Kachhi Niwasi village bhuswa
				206	private	Irrigated	0.030	Dhaniram S/o Ramdas part rakva 31/2 Aare Pratipal singh Hamaam singh s/o Garibe part rakva 3/2 Aare Lodhi Hariram s/o Ramdas Janki d/o Ramdas MU. Ramkali widow Ramdas Bhagsum rakva 0.51 Aare cast kachhi Niwasi village bhuswa
				207	private	Non-irrigated	0.010	Vanmali Mangal s/o Rajaram Bhagsum 3/4 Mu Triveni W/o Raja Ram part 1/4 cast kachi niwasi village bhuswa
				211	private	Irrigated	0.050	Maniram s/o Mangli niwasi Jignia Tahseel Sevada part 8/19 • mu. . Parvati w/o premnarayan bhag 3/95 Komal singh pritam singh Mansaram Balli s/o Premnarayan Bhag 37/95 Pannalal s/o Sure bhag 3/19 cast Kachhi Niwasi village bhuswa
				212	private	Irrigated	0.050	Komal singh s/o premnarayan hissa 4/31 Komal singh Pritam singh Mansa ram Balli s/o premnarayan bhag saman 27/31 cast Kachhi Niwasi village bhuswa
				214	private	Irrigated	0.100	Shiv charan s/o sunnu cast Brahman Niwasi Badera bhuswa
		(18)(gora) Goraghar		17	private	Non-irrigated	0.030	Ram chandra s/o Basumal cast sindhi Niwasi Danaoli Lashkar Bhuswa
				29	private	Non-irrigated	1.210	Ravi kumar s/o Harcharan cast Agrawal Niwasi Gwalior Bhuswa
				35	private	Non-irrigated	0.520	Devendra kumar Kamthan s/o Saraswati prasad cast Kayastha Niwasi shivpuri bhuswa
				82/1	private	Irrigated	0.170	Sitaram s/o Saroo cast Jatav Niwasi Kotra bhuswa
				83/1	private	Non-irrigated	0.020	Sitaram Karan singh Battu s/o Saroo cast jatav Niwasi Kotra bhuswa
				83/2	private	Irrigated	0.130	karan singh s/o Saroo cast jatav Niwasi Kotra bhuswa
				83/3	private	Irrigated	0.110	Sitaram s/o Saroo cast Jatav Niwasi village bhuswa
				326	private	Irrigated	0.300	Kishorilal Aadhran s/o Hardev Mu. Khumano w/o Hardev bhagsaman cast Vagla Niwasi Kotra bhuswa
				325	private	Irrigated	0.150	Kesheria s/o Hallu cast Gadaeria Niwasi village bhuswa
				324	private	Irrigated	0.230	
				333	private	Irrigated	0.290	
				329	private	Irrigated	0.090	
				332	private	Non-irrigated	0.070	Kishun lal Motilal s/o Panna lal bhagsum 1/2 Battu lal Hukum Singh s/o Panna lal bhagsum 1/3 Surat singh s/o Chhatar singh 1/o cast rawat Niwasi Kotra bhuswa
				331	private	Irrigated	0.380	Govind singh s/o Surat singh cast rawat Niwasi village bhuswa
				41	private	Non-irrigated	0.320	pavan devi w/o kishun kumar cast Agrawal Niwasi Gwalior bhuswa
				18	private	Non-irrigated	0.080	Bharti widow of shyamlal Naresh kumar s/o Shyamlal
				42	private	Non-irrigated	0.090	bhagsaman cast sindhi niwasi Danaoli Lashkar bhuswa
				40	private	Non-irrigated	0.250	Goverdhandas s/o Vasumal cast sindhi niwasi Danaoli Lashkar bhuswa
				43	private	Non-irrigated	0.680	Ramchandra s/o Vasumal cast sindhi niwasi Danaoli Lashkar bhuswa
				28	private	Non-irrigated	0.100	pavan devi w/o kishun kumar cast Agrawal Niwasi Gwalior bhuswa
				27	private	Non-irrigated	0.320	Mahesh kumar s/o Vasumal cast sindhi niwasi Danaoli
				36	private	Non-irrigated	0.090	Lashkar bhuswa
		(19)Kotra		648	private	Non-irrigated	0.002	Smt. Manku devi s/o Gyan singh cast kameria Niwasi Durawali Distt. Gwalior Bhuswa
				634	private	Non-irrigated	0.010	Uma charan s/o Shiv charan part 1/4 cast Vaishya Haridas s/o jagannath part 3/20 cast kori niwasi Dabra Jagdish s/o Badri prasad Ramesh prasad s/o Badri prasad niwasi Badonkala Sitaram s/o Nankulal bhagsaman 1/4 cast Vaishya niwasi Krishanapura Dabra Vaansingh Virendra singh s/o Lallu singh cast rawat Niwasi bhuswa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				590	private	Non-irrigated	0.002	Delip singh s/o Dhani ram cast kori niwasi Badonkala village bhuswa
				587	private	Irrigated	0.100	Bhikam singh, Pratap singh Ba. Pritam singh naba. s/o sir. Ganga singh bhagsaman cast kameran niwasi Mehra Distt. Gwalior bhuswa
				585	private	Irrigated	0.100	Ramdas Aadhran Shiya sharan Ramjeet s/o Rajaram cast rawat Niwasi village bhuswa
				531	private	Irrigated	0.100	Ramgopal Rampratap Vijendra singh naba. S/o Va & sir. Jagdish singh bhagsaman cast Niwasi village bhuswa
				677/1	private	Non-irrigated	0.030	Kishun lal s/o Pahalwan singh cast rawat Niwasi Pachokhara bhuswa
				677/2	private	Non-irrigated	0.010	Abhay kumar s/o Shyamlal cast sen Niwasi village bhuswa
				530	private	Irrigated	0.060	Ramnath s/o Meharbaan singh cast rawat Niwasi village
				518	private	Irrigated	0.080	Mahesh kumar s/o Agarsingh part rakva 0.23 Goyesh naba. s/o Kishori part rakva 0.12 rawat Brijkshore Kamlesh kumar s/o shivcharan bhagsaman 1/8 cast jha niwasi village Badonkala bhuswa
				528	private	Irrigated	0.100	Mahendra singh Punjab singh s/o Karan singh bhagsaman cast rawat Niwasi village bhuswa
				529	private	Irrigated	0.100	
				532	private	Irrigated	0.130	
				517	private	Irrigated	0.100	Kadir Mohammad s/o Isak Mohammad cast muslim Niwasi village bhuswa
				675	private	Irrigated	0.020	Charan singh Mahendra singh s/o kishun lal part 1/2 Hakim singh Tahasildar singh s/o Sunmaan singh bhagsaman 1/2 cast rawat Niwasi village bhuswa
				676	private	Non-irrigated	0.020	Kishun lal s/o pahalwan singh cast rawat niwasi Pachokhara bhuswa
				547	private	Irrigated	0.160	Ranjor singh s/o Badam singh part 1/6 Naran singh s/o badam singh part 1/6 Shrilal Gupal s/o Tula part 2/3 cast rawat Niwasi village bhuswa
				575	private	Irrigated	0.060	Omprakash s/o Nathuram & Pramod kumar s/o Om prakash cast Brahman Niwasi Subhash ganj Dabra bhuswa
				577	private	Irrigated	0.040	Suresh kumar s/o Jhagdu cast jatav Niwasi village bhuswa
				578	private	Irrigated	0.020	Ramsingh Than singh s/o Roop singh part 1/2 cast rawat Mahendra singh s/o Ghanusunder part 1/2 rawat Niwasi Dabra bhuswa
				584	private	Irrigated	0.150	Anil kumar naba. s/o Naran cast sahu sir. Ma. Meera Niwasi village bhuswa
				519	private	Irrigated	0.050	Gajraj singh s/o Ramdayal cast rawat Niwasi village bhuswa
				438	private	Irrigated	0.080	Sunder lal s/o Pheran singh cast rawat Niwasi village bhuswa
				673	private	Irrigated	0.010	Sunmaan singh s/o Dheeraj singh cast rawat Niwasi village bhuswa
				549	private	Irrigated	0.100	Jagdish Singh S/O Shyam lal rawat Niwasi village bhuswa
				548	private	Irrigated	0.150	Ram gopal Rampratap Vijendra singh naba. s/o sir. Jagdish singh bhagsaman 61/82 cast rawat Rafiq Khan s/o Punne khan part 21/82 niwasi Thakur baba ke pass Dabra bhuswa
				585	private	Irrigated	0.050	Mu. Bhago w/o Rajaram. Ramdas, Aadhran Siyasharan Ramjeet s/o Rajaram cast rawat Niwasi village bhuswa
				550	private	Non-irrigated	0.040	Sonal Stone Prod. Pvt. Ltd. Goraghat dwara Atul kumar s/o G.S. Saxena Niwasi Gwalior bhuswa
				554	private	Non-irrigated	0.020	Kamta prasad s/o Bhagwan das cast Brahman & Rajendra s/o Babu lal cast Vaishya bhagsaman Niwasi Badonkala bhuswa
				642	private	Non-irrigated	0.010	
				635	private	Non-irrigated	0.040	smt. Lakshmi w/o Lalla Urf Sohan singh cast kamaria Niwasi Gwalior bhuswa
				630	private	Non-irrigated	0.020	Rajaram s/o Madho cast Shivhare Niwasi Badonkala bhuswa

[F. No. NHAI/PIU/Gwalior/2007-08/Gwalior-Jhansi/Datia/3D]

PRABHAKAR, Dy. Secy.